
विश्वेश्वरानन्द भारतभारती ग्रन्थमाला-३
Vishveshvaranand Indological Series-3

सम्पादक: (Editor) :

विश्वबन्धु: (VISHVA BANDHU),

शास्त्री (Shastri), M.A., M.O.L. (पंजाब Pb.),

O.d'A (क्रॉस Fr.), Kt,C.T. (इटली It.)

भारते होशियारपुरे

वि. वै. शो. संस्थानके मुद्रणालये मुद्राप्य

विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थान-कृते

विद्याभास्करेण शास्त्रिणा देवदत्तेन प्राकाशि

Printed at

The V. V. R. INSTITUTE PRESS

and Published for

The Vishveshvaranand Vedic Research Institute


By DEVA. DATTA Shastri, V. B.,

at Hoshiarpur (India).

वि. भा. ग्रन्थमाला—३

V. I. Series—3

टराडनस्य यशःपालस्य
(Yashpal Tandon's)



पुराण-विषय-समनुक्रमणिका
(A Concordance of Purāṇa-Contents)

CHECKED - 1963

होशियारपुरे

(HOSHIARPUR)

विश्वेश्वरानन्दसंस्थान-प्रकाशनमण्डलम्

(Vishveshvaranand Institute Publications)

सर्वेऽधिकाराः सुरक्षिताः

प्रकाशक-संकेतः,
विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानम्,
साधु-आश्रमः, होशियारपुरं (भारते)

प्रथमं संस्करणम्, १९५२



All Rights Reserved

Publishers :

VISHVESHVARANAND VEDIC RESEARCH INSTITUTE,
Sadhu Ashram, HOSHIARPUR (India)

First Edition, 1952

प्रस्तावना

प्रस्ताव्यमानायाः खन्वस्याः समनुक्रमणिकाया मौलिकं संकलनं पद्मभ्योऽब्देभ्यः पूर्वमस्माकं संस्थानस्य लाभपुरीयाया अवस्थितेः समये समपद्यत । यत्तु नेतः प्राक् संस्कर्तुं प्रकाशयितुं चैतदशाकि, तत्रास्माकं प्रदेशस्याऽनिष्टविभाजनेन कारिता लाभपुरादस्माकं दुर्वारा दुर्गता च निर्गतिरेव दोषभाग् भवति । यच्चाधुनापि साधनसंपत्तिविहीनैरस्माभिर्यथाकथंचित् कर्मैतत् कर्तुं पारितं, तन्नस्तोषाय सत् स्यादेव समेषां ग्रन्थमिममुपयुञ्जानानामपि तोषायेत्येव काम्यते ।

प्राचीनभारतीयस्येतिहासस्य विषये समीचीनं परिचयं चिकीर्षुणाऽभियुक्तेन प्राग्भारतीये-ऽतिविशाले वाङ्मये संचितस्य सतः पदार्थजातस्य पारदृश्वना भाव्यमेव । न तु महता परिश्रमेण सुहुसुहुश्च क्रियमाणमपि वाङ्मयीयं पारायणमात्रं तात्त्विकशोधोपयिकान् पदार्थान् साकल्येन सपदि च संग्राहयितुमलम् । अनेन हेतुना यद् यद् वैदिके लौकिके च साहित्यराशौ तात्त्विकोपयोगक्षमं वस्तु समुपनिबद्धमुपलभ्येत, तत् तत् ततस्ततः संकलय्याऽऽशुग्राहिणीभिर्वर्णक्रमानुपातिनीभिश्चानुक्रमणीभिरेव द्वाभूताभिरवश्यं सत्वरं च शोधकर्मिणां विदुषां सौविध्यविधानाय समुपस्थापनार्हमिति स्पष्टम् ।

एवं शोधार्हवस्तुसर्वस्वानुक्रमणकर्मणो महत्त्वं संप्रधार्यैवाऽस्माकं संस्थानमुपनिवेशोभ्योऽब्देभ्यः पूर्वतः शतपञ्चकसंख्याकानां साङ्गोपाङ्गानां वैदिकसंहिताब्राह्मणारण्यकोपनिषत्सूत्रग्रन्थानां चतुर्दशभिः खण्डैः व्यूढस्य सतः पदानुक्रमकोषस्य संपादने व्याप्रियते । अधुना चनेन शोधकर्मतत्पर-विद्वज्जनलाभैकमतिना सता रामायणमहाभारतेतिहासद्वयेन सहकृतानां प्रसिद्धानामष्टादशसंख्याकानां पुराणग्रन्थानां विषयसमनुक्रमणीयं प्राकाश्यमनायि । वेदेतिहासपुराणातिरिक्तानां सतां भारतीय-वाङ्मयघटकग्रन्थान्तराणामपि समनुक्रमण्यो नानाविधा अपेक्ष्यन्त इतिकृत्वेदानीमपि कर्तुमवशिष्टस्य सतः कर्मणो महदेव क्षेत्रं द्रष्टव्यम् ।

प्रकृतायाः समनुक्रमण्या मौलिकस्य संकलनस्य कर्ताऽस्माकं सयुग्वा टण्डनोपाहो यशःपालो नाम वर्षद्वयान् प्राग् दिवं गत इति चेखिद्यते चेतः । संकलनं चादः संप्रति विदुषो विद्यालङ्कारपदमाजो जयचन्द्रस्य परामर्शमुपलब्धवता विदुषा कौलोपाह्वेन श्रीकरटेन संस्कृतं च परिवर्धितं च भवति । तेनाप्यत्र चतुर्थे प्रकरणे तत्तद्वंशीयानां राज्ञां यो नामत उद्देशः, तत्रैव (७) खण्डे कलियुगीयानां राजवंशानां मध्ये १-३ च ११-१४ च संख्यासृतां राजवंशानां यो-ऽनुप्रवेशश्चाकारि, तत्र F. E. Partgiter इत्यस्य विदुषः 'The Purana Texts of the Dynasties of the Kali Age' इत्यस्य ग्रन्थस्योपाश्रय ऊरूकृतो वेदितव्यः । एवं समग्रमपि पञ्चमं प्रकरणं, द्वादशप्रकरणे नद्युपप्रकरणम् इति च द्वयं तेन दिनेशचन्द्रसरकार इत्यस्य विदुषः 'Text of the Puranic List of Peoples' (Indian Historical Quarterly, Vol. XXI, No. 4),

'Text of the Puranic List of Rivers' (Indian Historical Quarterly, Vol. XXVII, No. 3) इति लेखद्वयमुपाश्रित्य व्यरचि । नवमप्रकरणायो मूलस्थलसंकेतस्तु विदुषा हंसराजेन विदुषो भीमदेवस्याऽऽव्यक्ष्ये सुशोधितश्च, तदनुपस्थितौ विदुषाऽमरनाथेन शोधितश्च, विदुषो देवदत्तस्याऽऽव्यक्ष्ये सुमुद्रितश्च सन्नयं ग्रन्थोऽधुना प्राकाशयमलब्धः ।

सर्वेषामप्यत्र कृतसंकेतानां विदुषामाभारोऽस्माभिर्हृदयेन स्वीक्रियते । समयभेदेन हस्तभेदेन च संपादितेऽस्मिन् बहुसाधनव्यपाश्रये वस्तुनि नानाविधानां बहूनां च स्वलितीनां सुलभत्वं कैमुतिकं मन्वानैश्चास्माभिः सन्तोऽभियुक्ता मर्षणं च संस्करणान्तरोपयोज्यं शोधनसूचनं च भूयो भूयोऽभ्यर्थ्यन्ते, इत्थंवेद्यते सम्पादयिष्या

होशयारपुरे

वि. वै. शोधसंस्थानम्

६-११-१९५२

विश्वबन्धुना

संकलनक्रमेण विषय-शीर्षक-संकेताः

पृष्ठानि

प्रस्तावना	६-७
अकारादिक्रमेण विषय-शीर्षक-संकेताः	८-११
मूलग्रन्थ-नाम-संक्षेपाः	१२-१५

प्रथमं प्रकरणम्

उपोद्धातः—

१ मङ्गलाचरण-प्रारम्भप्रश्न-कृत्यसमुद्देशादि, २ पुराण-लक्षणम्, ३ पुराण-विभागः, ४ पुराण-संख्या, ५ पुराण-विषयाः, ६ पुराण-माहात्म्यम्, ७ पुराण-परम्परा, ८ सूत-धर्माः

३-५

द्वितीयं प्रकरणम्

सृष्टिप्रलयादि—

१ सृष्टिः, २ प्रलयः, ३ विसर्गः

५-६

तृतीयं प्रकरणम्

कालमानादि—

१ कालमानम्, २ कल्पः, ३ मन्वन्तराणि, ४ युगधर्माः

६-७

चतुर्थं प्रकरणम्

वंश-वंशानुचरितम्—

(क) स्वयंभुवमनुवंशः— १ स्वयंभुवमनोः शतकल्पायाश्चोत्पत्तिः संततिश्च, २ उत्तानपाद-वंशः, ३ प्रियव्रत-वंशः, ४ दक्षकन्या-संततिः, ५ स्वयंभुवमनुवंश-राजचरितम्—उत्तम-ऋषभ-कापिलेय-दत्तप्राचेतस-ध्रुव-पुरञ्जन-पुष्टि-पृथु-प्रचेतस-प्रियव्रत-भद्राश्व-भरत-वेन-शतशृङ्ग-सुयज्ञ-सुशील-स्वयंभुवमनु-वरितानि ... ८-१०

(ख) सूर्य-वंशः— वैवस्वतमनुपुत्र-वंशः, १ इक्ष्वाकु-वंशः—कुश-बृहद्बल-रामाः, २ इक्ष्वाकुपुत्र-वंशः—कुशध्वज-वंशः, दण्ड-वंशः, नेमि-वंशः, विकुक्षि-वंशः, सुदर्शन-वंशः, ३ करुष-वंशः, ४ कवि-वंशः, ५ दिष्ट-वंशः, ६ घृष्ट-वंशः, ७ नरिष्यन्त-वंशः, ८ नाभाग-वंशः, ९ नाभागरिष्ट-वंशः, १० नृग-वंशः, ११ पृषप्र-वंशः, १२ प्राञ्च-वंशः, १३ शर्याति-वंशः, १४ सुयुत्र-वंशः ... ११-१४

(ग) सोम-वंशः— १ अंग-वंशः, २ अनु-वंशः, ३ अनेनस-वंशः, ४ अमावसु-वंशः, ५ अत्रवृद्ध-वंशः, ६ तुर्वसु-वंशः, ७ द्रुह्य-वंशः, ८ नहुष-वंशः, ९ यदु-वंशः—ककुर-वंशः, क्रथ-वंशः, क्रोष्टु-वंशः, देवावृध-वंशः, निम्न-वंशः, भजमान-वंशः, महामोज-वंशः, वृष्णि-वंशः, शिनि-वंशः, हैहय-वंशः, १० रजि-वंशः, ११ रम्भ-वंशः १४-१६

(घ) पुरु-वंशः— १ अजमीढ-वंशः, २ र्या-वंशः, ३ द्विजमीढ-वंशः, ४ नर-वंशः, ५ नील-वंशः, ६ पुरु-जनमेजय-वंशः, ७ बृहत्क्षत्र-वंशः, ८ बृहदिषु-वंशः, ९ महावीर्य-वंशः, १० सुघनु-भ्रुतिश्रवाः, ११ सुहोत्र-वंशः ... १६-२०

(ङ) कलियुगीयराज-वंशाः—१ पौरव-वंशः, २ इक्ष्वाकु-वंशः, ३ बार्हद्रथ-वंशः, ४ प्रद्योत-वंशः, ५ शिशुनाग-वंशः, ६ नन्द-वंशः, ७ मौर्य-वंशः, ८ शुङ्ग-वंशः, ९ करव-वंशः, १० आन्द्र-वंशः, ११ स्थानीय-राजवंशाः, १२ वैदेशीय-राजवंशाः, १३ क्राइस्टतृतीयशताब्दीय-राजवंशाः, १४ क्राइस्टचतुर्थशताब्दीय-राज-वंशाः, १५ प्रमर-वंशः, चपहानि-वंशाः, क्षत्रिपाः, १६ अग्नि-वंशः, १७ शालिवाहन-वंशः, १८ भोजराज-वंशः, १९ तोमर-वंशः, २० शुङ्ग-वंशः, २१ पनिहर-वंशः, २२ गुलाम-वंशः, २३ तैमूर-वंशः, २४ मुगल-वंशः, २५ गुरुगढ-वंशः, २६ मौन-वंशः, २७ नाग-वंशः, २८ राहू-वंशः, २९ विविध-नृपति-वंशाः, ३० कलियुगीय-राजवंशान्तर्गत-नृपतिचरितम्—उदयसिंह-जयचन्द्र-देवसिंह-पृथिवीराज-प्रद्योत-बलखानि-ब्रह्मानन्द-भर्तृहरि-भोजराज-महानन्दि-लक्ष्मण-विक्रम-चरितानि ... २१-२६

(च) देव-वंशः—यक्ष-गन्धव-किन्नर-नाग-गुह्यक-असुर-राक्षस-वंशाः देवयोन्यु-त्पत्तिश्च, १ अधिपतिः, २ किरातः, ३ चित्रसेनः, ४ चैत्ररथः, ५ यक्षः २६-२७

(छ) असुरराज-वंशः—दैत्य-दानव-राक्षस-वंशाः ... २७

(ज) वानर-वंशः—१ द्विविदः, २ नलः, ३ मैदः, ४ सुग्रीवबालिनोश्चरितम्, ५ सुषेणः, ६ हनूमच्चरितम् ... २७-२८

पञ्चमं प्रकरणम्

जातयः—

१ उत्तरदेशीयाः, २ दक्षिणदेशीयाः, ३ पर्वतदेशीयाः, ४ पश्चिमदेशीयाः, ५ पूर्वदेशीयाः, ६ मध्यदेशीयाः, ७ विन्ध्यदेशीयाः ... २९-३०

षष्ठं प्रकरणम्

अध्यात्मप्रकरणम्—

१ आत्म-तत्त्वम्, २ कर्म-विपाकः, ३ मुक्तिः, ४ मृत्यु-बन्ध-संसारः, ५ योग-ध्यानम्, ६ वेदान्तः ... ३१-३२

सप्तमं प्रकरणम्

स्मृतिः [धर्मशास्त्रम्]—

१ अनध्याय-उपाकर्मणी, २ आपद्धर्माः, ३ तीर्थमाहात्म्य-तीर्थयात्राः, ४ दानम्, ५ द्रव्य-शुद्धिः, ६ पितृकल्पः (श्राद्धम्), ७ पूजा-दीक्षा-संस्काराः, ८ प्रायश्चित्तानि, ९ भक्ष्याभक्ष्यम्, १० मनुष्य-लक्षणम्, ११ यातनास्थान-नरक-कर्मविपाकाः, १२ राज-धर्म-राजनीति-दण्डनीति-राजशासनानि, १३ वर्णाश्रमधर्माः, १४ व्रत-तिथि-माहात्म्य-उत्सवाः, १५ शौचाशौचम्, १६ साधारण-धर्माः, १७ स्त्री-धर्माः ३३-३७

अष्टमं प्रकरणम्

आधिदैविकम्—

... .. ३८

नवमं प्रकरणम्

पृष्ठे

विविध-देव-देवांश-अवताराः—

(१) देवाः—इन्द्रः, कार्तिकेयः, गणपतिः, पौष्करः, ब्रह्मा, रुद्रः, लिङ्गम्, विविधदेवाः, शिवः, सूर्यः	३६-४०
(२) देवांशाः—अर्जुनः, नारदः, मान्धाता, शङ्कराचार्यः	४०
(३) देवी—तुलसी, त्रिशक्तिः, दुर्गा, धात्री, सावित्री	४१
(४) विष्णुः—ऋषभदेवः, कच्छपः, कपिलः, कल्किः, कूर्मः, कृष्णः, दत्तात्रेयः, धन्वन्तरिः, नर-नारायणौ, नरसिंहः, परशुरामः, पृथुः, बलरामः, बुद्धः, मत्स्यः, मोहिनी, यज्ञः, रामः, वराहः, वामनः, व्यासः, हयग्रीवः	४१-४४

दशमं प्रकरणम्

अधि-यज्ञः—

१ ऋषिवंश-प्रवराः, २ मन्त्राऽरिष्ट-ग्रहशान्तयः, ३ यज्ञ-होम-वेदविधानानि, ४ वेदविभाग-शाखा-त्रयी-माहात्म्यानि	४५
--	-----	-----	-----	----

एकादशं प्रकरणम्

अधि-विज्ञानम्—

१ अर्थ-शास्त्रम्, २ अलंकार-शास्त्रम्, ३ आदित्यव्यूह-माहात्म्य-पूजाः, ४ आयुर्वेदः, ५ कलाः, ६ कल्पः ७ काम-शास्त्रम्, ८ गान्धर्वम्, ९ छन्दः, १० ज्योतिषम्, ११ तन्त्रम्, १२ धनुर्वेदः, १३ निरुक्तम्, १४ नीति-शास्त्रम्, १५ पशु-चिकित्सा, १६ रत्न-परीक्षा, १७ लोकाः, १८ वनस्पति-शास्त्रम्, १९ वस्तु-सारासारः, २० वास्तु- विद्या-शिल्प-मूर्तयः, २१ विद्या, २२ विविधप्रन्थ-सारः, २३ व्याकरणम्, २४ शिक्षा, २५ सर्प-विद्या, २६ सामुद्रिकम्	४६-४९
--	-----	-----	-----	-------

द्वादशं प्रकरणम्

भू-वृत्तम्—

१ कुश-द्वीपः, २ कौश-द्वीपः, ३ गोमेदः, ४ जम्बू-द्वीपः, ५ नद्यः—ऋत्न-निः- सृताः, पारियात्र-निःसृताः, मलय-निःसृताः, महेन्द्र-निःसृताः, विन्ध्यपाद-निःसृताः, शुक्तिमत्पाद-निःसृताः, सद्यपाद-निःसृताः, हिमवत्पाद-निःसृताः, ६ पर्वत-विभागः, ७ पुष्कर-द्वीपः, ८ पृथिवी-अटनम्, ९ पृथिवी-आकारः, १० पृथिवी-परिमाणम्, ११ पृथिवी-विभागः, १२ पृथिवी-संस्थानम्, १३ प्लक्ष-द्वीपः, १४ भारत-प्रशस्तिः, १५ भू-मण्डलम्, १६ लोकालोक-पर्वतः, १७ वृष्टिः, १८ शर-द्वीपः, १९ शाक- द्वीपः, २० शालमल-द्वीपः, २१ सप्त द्वीपाः, २२ समुद्र-वेला, २३ सूर्यावरोधात् हानिः	५०-५४
--	-----	-----	-----	-------

अकारादिक्रमेण विषय-शीर्षक-संकेताः^१

अग्निमित्रः २३	अयुतायुः २१
अग्नि-वंशः २४	°अरिष्ट° ४५
अङ्गलौकिकाः २६	अरिष्टकर्षाः २३
अंग-वंशः १४	अर्जुनः ४०
अंगाः ३०	अर्थ-शास्त्रम् ४६
अजकः २२	अर्बुदाः ३०
अजमीढ-वंशः १६,	अलंकार-शास्त्रम् ४६
अजमीढ-संततिः २० ^२	अलूपाः २६
अजातशत्रुः २२	अवगानाः २६
अधिपतिः २६	°अवतार° ३८
अधि-यज्ञः ४५	°अवताराः ३६
अधि-विज्ञानम् ४६	अवन्तयः ३०
अधिसीमकृष्णाः २१	अवन्ती ५१
अनध्याय° ३३	अशोकः २२
अनिभद्राः २६	अश्मकाः २६
अनु-वंशः १५	अश्वमेधदत्तः २१
अनूपाः ३०	°असुर° २६
अनेनस्-वंशः १५	असुरराज-वंशः २७
अन्तरिक्षः २१	आङ्गेयाः ३०
अन्तर्गिरयः ३०	आटव्याः २६
अन्तःशिला ५१	आत्म-तत्त्वम् ३१
अंधक-वंशः १६	आदित्यव्यूह-माहात्म्यपूजाः ४६
अन्धकाः ३०	आधिदैविकम् ३८
अन्धकः २३	आनर्त्ताः ३०
अन्ध्राः २६	आन्ध्र-वंशः २३
अपरान्ताः २६, ३०	आपद्धर्माः ३३
अभिमन्युः २१	आपीलकः २३
अमावसु-वंशः १५	आभीराः २६
अमृतजित् २१	

आयुर्वेदः ४६	कच्छपः ४२
आवन्ताः ३०	कच्छीयाः ३०
इक्षुः ५२	कठोपनिषद् ४६
इक्षुला ५१	कण्टकाराः २६
इक्ष्वाकुपुत्र-वंशः ११	करव-वंशः २३
इक्ष्वाकु-वंशः ११	कपिलः ४२
इक्ष्वाकु-वंशः (कलियुगीयः) २१	कमलनाभः ३९
इन्द्रः ३६	कम्बोजाः २६
इरावती ५२	करमोदा ५१
उप्रायुध-वंशः १६	करुष-वंशः १२
उत्कलाः ३०	कर्णप्रावरणाः ३०
उत्तम-चरितम् ६	कर्म-विपाकः ३१
उत्तमर्णाः ३०	कर्मविपाकाः ३५
उत्तरदेशीयाः २६	कलाः ४६
उत्तरनर्मदाः ३०	कलिङ्गाः २६
उत्तानपाद-वंशः ८	कलियुगीय-राज-वंशाः २१
उत्पलावती ५१	कलियुगीय-राजवंशान्तर्गत- नृपतिचरितम् २५
उत्सवाः ३६	कल्किः ४२
उदयनः २१	कल्पः ७, ४६
उदयसिंह-चरितम् २५	कवि-वंशः १२
उदयी २२	काकवर्णाः २२
उद्भिदाः २६	काण्वायनाः १६
उपनिषद् ३२	कात्यायन-व्याकरणम् ४६
उपाकर्मन् ३३	कापिलियोपाख्यानम् ६
उपोद्घातः ३	कामप्रशंसा ४६
उरुक्षयः २१	काम-शास्त्रम् ४६
उष्णः २१	कारस्कराः ३०
ऋत्न-निःसृताः (नद्यः) ५१	कारुषाः ३०
ऋषभ-चरितम् ६	कार्तिकेयः ३६
ऋषभदेवः ४१	कालतोयाः २६
ऋषिकाः २६	कालमानम् ६
ऋषिकुल्या ५१, ५२	कावेराः २६
ऋषिवंश ^० ४५	कावेरी ५२
औरसाः २६	काश्यः ३०
ककुर-वंशः १६	

काश्मीराः २६
 °किन्नर° २६
 किन्नराश्वः २१
 किरातः २६
 किराताः २६, ३०^२
 किष्किन्धाः ३०
 कुणिन्दाः २९
 कुनालः २२
 कुन्तयः ३०
 कुन्तलः २३
 कुन्तलाः २६
 कुन्ती ५१
 कुमाराः २६
 कुमारी ५२
 कुमुद्वती ५१
 कुरवः ३०
 कुरुपञ्चालाः ३०
 कुलकः २१
 कुलूनाः २६
 कुल्याः २६, ३०
 कुशाः ११
 कुशा-द्वीपः ५०
 कुशाध्वज-वंशः ११
 कुहूः ५२
 कूपा ६२
 कूर्मः ४२
 कृतञ्जयः २१
 कृतमाला ५१
 °कृत्यस्रमुद्देशादि ३
 कृष्णः २३, ४२
 कृष्णा ५२
 केरलाः २६
 कैकेयाः २६
 कोलवनाः ३०
 कोट्यन्ताः ३०^२

कौशिकी ५२
 क्रथ-वंशः १६
 क्रमुः ५१
 काइस्टचतुर्थशताब्दीय-राज-
 वंशाः २४
 काइस्टतृतीयशताब्दीय-
 राज-वंशाः २४
 क्रिया ५१
 क्रोष्टु-वंशः १७
 क्रौञ्चद्वीपः ५०
 क्षत्रयोधाः २६
 क्षत्रवृद्ध-वंशः १५
 क्षत्रिपाः २४
 क्षत्रियाः २६
 क्षत्रौजाः २२
 क्षुद्रकः २१
 क्षुद्राः २६
 क्षेमः २१
 क्षेमकः २१
 क्षेमधर्मा २२
 खसाः ३०
 गङ्गा ५२
 गणपतिः ३६
 गण्डकी ५२
 °गन्धर्व° २६
 गर्ग-वंशः १९
 गान्धर्वम् ४६
 गान्धाराः २६
 गीता ४९
 गुरुशङ्क-वंशः २५
 गुलाम-वंशः २५
 °गुह्यक° २६
 गोदावरी ५२
 गोनर्दाः ३०
 गोमती ६२

गोमेदः ५०	ताम्रपर्णी ५१
गौतमीपुत्र २३	ताम्रलितकाः ३०
ग्रन्थसारः ४६	तालीकटाः ३०
°ग्रहशान्तयः ४५	तिग्मात्मा २१
घोषः २३	°तिथिमाहात्म्य° ३६
चकोरः २३	तीर्थमाहात्म्य° ३३
चण्डश्रीः २३	°तीर्थयात्राः ३३
चन्दना ५१	तुङ्गभद्रा ५२
चन्द्रगुप्तः २२	तुण्डिकेराः ३०
चन्द्रभागा ५२	तुम्बवनाः ३०
चपहानि-वंशाः २४	तुम्बानाः ३०
चर्मखण्डिकाः २६	तुर्वसु-वंशः १५
चर्मण्वती ५१	तुलसी ४१
चित्रकूटा ५१	तुषाराः २६
चित्ररथः २१	तृतीया ५२
चित्रमेनः २६	तैमूर-वंशः २५
चित्रोत्पला ५१	तोमर-वंशः २४
चीनाः २६	तोमराः २६, ३०
चूलिकाः २६	तोया ५१
चोलाः २६	तोशलाः ३०
चैत्ररथः २६	°त्रयी° ४५
चैषीकाः २६	त्रिगर्ताः ३०
छन्दः ४७, ४६	त्रिदिवा ५१ ^२
जनमेजयः २१	त्रिनेत्रः २१
जम्बू-द्वीपः ५०	त्रिशक्तिः ४१
जयचन्द्र-चरितम् २५	त्रिसामा ५१
जागुडाः २६	त्रैपुराः ३०
जाङ्गलाः ३०	दक्षकन्या-संततिः ८
जातयः २६	दक्षप्राचेतस-चरितम् ६
ज्योतिषम् ४७, ४६	दक्षिणदेशीयाः २६
तंगणाः २६, ३०	दण्डकाः २६
तन्त्रम् ४७	°दण्डनीति° ३५
तमसा ५१	°दण्डनीतिः ४६
तापी ५१	दण्डपाणिः २१
तामसाः ३०	दण्ड-वंशः १२
	दत्तात्रेयः ४२

दरदाः २६
 दर्वाः २६
 दर्शकः २२
 दशमानकाः २६
 दशरथः २२
 दशाणी ५१
 दशाणाः ३०
 दशोनः २२
 दसेरकाः २६
 दानम् ३३
 °दानव° २७
 दावाः ३०
 दिवाकरः २१
 दिष्ट-वंशः १२
 °दीक्षा° ३४
 दुर्गा ४१, ५१
 दुर्गाः ३०
 दुर्वः २१
 दृढसेनः २१
 दृषद्वती ५२
 °देव° ३६
 देवनामाहात्म्य° ३८
 देवधर्मा २२
 देवभूमिः २३
 देवयोन्मुत्पत्तिः २६
 देव-वंशः २६
 देवसिंह-चरितम् २५
 देवांशाः ४०
 देवाः ३६
 देवावृष-वंशः १७
 देविका ५२
 देवी ४१
 दैत्य° २७
 द्रव्य-शुद्धिः ३४
 दुम्ना-वंशः १६
 द्विजमीढ-वंशः १६

द्विविदः २७
 धनुर्वेदः ४७
 धन्वन्तरिः ४२
 धर्मशास्त्रम् ३३
 धर्मी २१
 धात्री ४१
 धूनपापा ५२
 धृष्ट-वंशः १२
 ध्रुवाख्यानम् ६
 नद्यः ५१
 नन्द-वंशः २२
 नन्दिवर्धनः २२
 नर° ४२
 °नरक° ३५
 नर-वंशः १६
 नरसिंहः ४३
 नरिष्यन्त-वंशः १३
 नर्मदा ५१
 नलः ११, २७
 नलकाः २६
 नहुप वंशः १६
 °नाग° २६
 नाग-वंशः २५
 नाभाग-वंशः १३
 नाभागरिष्ट-वंशः १३
 नारदः ४०
 नारायणः २३
 °नारायणौ ४२
 नासिक्याः ३०
 निम्न-वंशः १७
 निचक्रुः २१
 निरामित्रः २१
 निराहाराः ३०
 निरुक्तम् ४७
 निर्विन्ध्या ५१
 निर्वृत्तिः २१

निश्चोरा ५२
 निषधाः ३०
 निषधावती ५१
 नीतिशास्त्रम् ४७
 नीप-वंशः २०
 नील-वंश २०
 नृग-वंशः १३
 नृचक्षुः २१
 नृपञ्जयः २१
 नृपति-वंशाः २५
 नेमि-वंशः १२
 पञ्चनदीयराज-वंशः १५
 पटच्चराः ३०
 पटवः ३१
 पतिहर-वंशः २५
 पयोष्णी ५१
 परशुरामः ४३
 परिकषेणः २३
 परिप्लवः २१
 परीक्षितः २१
 पर्याशा ५१
 पर्वतदेशीयाः ३०
 पर्वत-विभागः ६२
 पलाशिनी ५२
 पशु-चिकित्सा ४८
 पश्चिमदेशीयाः ३०
 पहवाः २९
 पाण्ड्याः २६
 पात्रापात्र-विवेकः ३३
 पारदाः २९
 पारा ५१
 पारियात्र-निःसृताः (नद्यः) ५१
 पालकः २२
 पाशुपतः ३६
 पितृकल्पः ३४
 पिप्पलश्रोणी ५१

पिशाचिका ५१
 पुरञ्जनोपाख्यानम् ६
 पुराण-परम्परा ५
 पुराण-माहात्म्यम् ४
 पुराण-लक्षणम् ३
 पुराण-विभागः ३
 पुराण-विषयाः ४
 पुराण-संख्या ४
 पुरु जनमेजय-वंशः २०
 पुरु-वंशः १६
 पुलिन्दकः २३
 पुलिन्दाः २९
 पुल्लेयाः ३०
 पुल्लोमा २३
 पुल्लोमाविः २३
 पुष्कर-द्वीपः ५२
 पुष्टि-चरितम् ९
 पुष्पजा ५१
 पुष्यमित्रः २३
 पूजा ३४
 पूर्णोत्सङ्गः २३
 पूर्वदेशीयाः ३०
 पृथिवी-अटनम् ५२
 पृथिवी-आकारः ५२
 पृथिवी-परिमाणम् ५२
 पृथिवीराज-चरितम् २५
 पृथिवी-विभागः ५३
 पृथिवी-संस्थानम् ५३
 पृथुः ४३
 पृथु-चरितम् ९
 पृथिन-वंशः १८
 पृषध्न-वंशः १३
 पौण्ड्राः ३०
 पौरव-वंशः २१
 पौत्रिका ० ०६

पौष्करः ३९
 प्रचेतशु-चरितम् १०
 प्रतिव्योमा २१
 प्रतीताश्वः २१
 प्रद्योतः २२
 प्रद्योत-चरितम् २'
 प्रद्योत-वंशः २२
 प्रमर-वंशः २४^२
 प्रलयः ६
 °प्रवराः ४५
 प्रमुधुतः ११
 प्रसेनजित् २१
 प्रस्थलाः २९
 प्रांशु-वंशः १४
 प्राग्ज्योतिषः ३०
 प्रायाश्चेत्तानि ३४
 °प्रारम्भ-प्रश्न° ३
 प्रियव्रत-चरितम् १०
 प्रियव्रत-वंशः ८
 प्लक्ष-द्वीपः ५३
 °बन्ध° ३१
 बन्धुपालितः २२
 बलखानि-चरितम् २५
 बलरामः ४३
 बहिर्गिरयः ३०
 बहुलाः २९
 बार्हद्रथ-वंशः २१
 बालिन् २७
 बालुवाहिनी ५१
 बाल्हीकाः २९
 बाहुदा ५२
 बाह्या ५२
 बिन्दुसारः २२
 बिबिसारः २२
 बद्धः ४३

बृहत्कर्मा २१
 बृहत्क्षत्र-वंशः २०
 बृहत्क्षयः २१
 बृहदश्वः २१
 बृहदिषु-वंशः २०
 बृहद्दलः ११^५, २१
 बृहद्भ्राजः २१
 बृहद्रथः २१, २२
 बृहस्पति-नीतिः ४९
 वेणवा ५२
 बोधाः ३०
 ब्रह्मा ३६
 ब्रह्मानन्द-चरितम् ५२
 ब्रह्मोत्तराः ३०
 भक्ष्याभक्ष्यम् ३४
 भजमान-वंशः १७
 भद्रकाराः ३०
 भद्राश्व-चरितम् १०
 भरत-चरितम् १०
 भरद्वाजाः २९
 भरुकच्छाः ३०
 भर्तृहारे-चरितम् २५
 भागवतः २३, ३६
 भानुरथः २१
 भारत-प्रशस्तिः ५३
 भागेवाङ्ग्याः ३०
 भीमरथी ५२
 मुलिङ्गाः ३०
 भू-मण्डलम् ५३
 भूमिमित्रः २३
 भू-वृत्तम् ५०
 भोगवर्द्धनाः २९
 भोजराज-चरितम् २६
 भोजराज-वंशः २४
 भोजाः ३०

मगधाः ३०^२
 मङ्गलाचरण° ३
 मञ्जुला ५१
 मत्स्यः ४३
 मत्स्याः ३०
 मद्रकाः २६
 मध्यदेशीयाः ३०
 मनुष्य-लक्षणम् ३५
 मन्तलकः २३
 मन्त्र° ४५
 मन्दगा ५२
 मन्दवाहिनी ५२
 मन्दाकिनी ५१
 मन्वन्तराणि ७
 मरुदेवः २१
 मलदाः ३०^२
 मलय-निःसृताः ५१
 मल्लकाः ३०
 मल्लवर्तिकाः ३०
 मल्लाः ३०
 महागौरी ५१
 महानदी ५१
 महानन्दि-चरितम् २६
 महानन्दी २२
 महापद्मः २२
 महाभारतम् ४९
 महाभोज-वंशः १८
 महाराष्ट्राः २९
 महावीर्य-वंशः २०
 मही ५१
 महीनेत्रः २१
 महेन्द्र-निःसृताः ५१
 मान्धाता ४०
 मालवाः ३०
 माहिषकाः २६
 माहेयाः ३०

शुक्तिः ३१
 सुगल-वंशः २५
 सुदूरवाः ३०
 सुरताः ३०
 °मूर्तयः ४८
 मूषिकाः २९
 मृगेन्द्रः २३
 मृत्यु° ३१
 मेघस्वातिः २३
 मेधावी २१
 मेलकाः ३०
 मैदः २७
 मोहिनी ४४
 मौन-वंशः २५
 मौर्य-वंशः २२
 मौलिकाः २९
 यक्ष° २६
 यक्षः २७
 यज्ञः ४४, ४५
 यज्ञधीः २३
 यदु-वंशः १६
 यमुना ५२
 यवनाः २९
 याज्ञवल्क्य-सृतिः ४९
 यातनास्थान° ३५
 युग-धर्माः ७
 योग-ध्यानम् ३२
 रजि-वंशः १८
 रणञ्जयः २१
 रत्न-परीक्षा ४८
 रमठाः २९
 रमिनाः ३०
 रम्भ-वंशः १९
 °राक्षस-वंशः २६, २७
 राजधर्म° ३५
 °राजनीति° ३५
 °राजशासनानि ३५

रामः ११, ४४
 रामायणम् ४६
 राहुलः २१
 राहू-वंशः २५
 रिपुञ्जयः २१
 रुचः २१
 रुद्रः ३६
 रूपसाः ३०
 लक्ष्मण-चरितम् २६
 लज्जा ५१
 लम्पाकाः २९
 लम्बोदरः २३
 लांगुलिनी ५१
 लिङ्गम् ३९
 लृपी ? ५१
 लोकाः ४८
 लोकालोकपर्वतः ५३
 लौहित्यः ५२
 वंशधरा ५१
 वंश-वंशानुचरितम् ८
 वज्राः ३०
 वज्रमित्रः २३
 वञ्जुला ५२
 वत्सव्यूहः २१
 वनवासाः २६
 वनस्पति-शास्त्रम् ४८
 वराहः ४४
 वर्णाश्रम-धर्माः ३५
 वर्वराः २६
 वसुज्येष्ठः २३
 वसुदानः २१
 वसुदेवः २३
 वसुधाख्यानम् ५
 वसुमित्रः २३
 वस्तु-सारासारः ४८
 वहीनरः २१
 वाङ्मयाः ३०

वाटधानाः २९
 वातिहोत्राः ३०
 वानर-वंशः २७
 वामनः ४४
 वास्तुविद्या^० ४८
 वाहीकाः २६
 विकुञ्चि-वंशः १२
 विक्रम-चरितम् २६
 विजयः २३
 वितस्ता ५२
 विदर्भाः २६
 विदिशा ११
 विदेहाः ३०
 विद्या ४९
 विन्ध्यदेशीयाः ३०
 विन्ध्यपाद-निःसृताः ५१
 विन्ध्यमूलीकाः २६
 विपःशा ५१, ५२
 विभुः २१
 विशाखरूपः २२
 विश्वजित् २१
 विष्णुः ४१
 विसर्गः ६
 वृत्रघ्नी ५१
 वृष्णिमान् २१
 वृष्णि-वंशः १८
 वृष्टिः ५४
 वरुवा ५१
 वेत्रवती ५१
 वेदः ४५
 वेदवती ५१
 वेदविधानानि ४५
 वेदविभाग^० ४५
 वेदस्मृतिः ५१
 वेदान्तः ३२
 वेन-चरित १०
 वैतरणी ५१

वैदिशाः ३०
 वैदेशीय-राज-वंशाः २४
 वैन्यः ४३
 वैवस्वतमनुपुत्र-वंशः ११
 वैष्णवः ३६
 व्याकरणम् ४६
 व्यासः ४४
 व्रत° ३६
 शङ्कली ५१
 शङ्कराचार्यः ४०
 शतकल्पा ८
 शतद्रुः ५२
 शतद्रुजाः २६
 शतधन्वा. २२
 शतशृङ्ग-चरितम् १०
 शतानीक २१
 शबराः २६
 शर-द्वीपः ५४
 शर्याति-वंशः १४
 शल्वाः ३०
 शाक-द्वीपः ५४
 शाक्तः ३६
 शाक्यः २१
 °शाखा° ४५
 शातकर्णी २३
 शालिवाहन-वंशः २१
 शालिशूकः २२
 शाल्मल-द्वीपः ५४
 शिल्पा ४६
 शिनिबाहुः ५१
 शिनि-वंशः १८
 शिप्रा ५१^२
 °शिल्प° ४८
 शिवः ४०
 शिवश्रीः २३
 शिवस्कन्धः २३
 शिवस्वातिः २३

शिशुनागः २२
 शिशुनाग-वंशः २२
 शुक्तिमती ५१
 शुक्तिमत्पाद-निःसृताः ५२
 शुक्ल-वंशः २४
 शुक्ल-वंशः २३
 शुचिः २१
 शुचिद्रथः २१
 शुद्धोदनः २१
 शुनी ५१
 शूद्रः २६
 शूद्रपारकाः ३०
 शूरसेनाः ३०
 शैव. ३६
 शोणः ५१
 शौचाशौचम् ३६
 श्राद्धम् ३४
 श्रीविजयाः ३०
 श्रीशातकर्णिः २३
 श्रुतश्रवाः २२
 श्रुतायुः ११
 श्रुतिः ४५
 श्रुतिश्रवाः २०
 श्रुतुजयः २२
 °संसाराः ३१
 °संस्काराः ३४
 सञ्जयः २१
 सत्यजित् २२
 सदानीरा ५१
 सप्त द्वीपाः ५४
 समुद्र-वेला ५४
 सम्प्रति २२
 सरयूः ५२
 सरस्वती ५२
 सर्पविद्या ४६
 सहदेवः २१, २२

सहापाद-निःसृताः ५२
 साधारण-धर्माः ३६
 सामुद्रिकम् ४६
 सारस्वताः ३०
 सावित्री ४१
 सिन्धवः २६
 सिन्धुः ५१, ५२
 सिद्धार्थः २१
 सिमुकः २३
 सुकल्पः २२
 सुक्षत्रः २२
 सुखीबलः २१
 सुग्रीव° २७
 सुचलः २२
 सुदर्शन-वंशः १२
 सुद्युम्न-वंशः १४
 सुधनु° २०
 सुनक्षत्रः २१
 सुनयः २१
 सुनीयः २१
 सुनेत्रः २२
 सुन्दरः २३
 सुपर्णः २१
 सुप्रतीकः २१
 सुप्रयोगा ५२
 सुमतिः २२
 सुमित्रः २१
 सुयज्ञ-चरितम् १०
 सुरथः ११, २१
 सुरसा ५१
 सुराष्ट्राः ३०
 सुव्रतः २२
 सुशर्मा २३
 सुशील-चरितम् १०
 सुभ्रमः २२

सुषेणः २१, २८
 सुहोत्र-वंशः २०
 सूत-धर्माः ५
 सूर्यः ४०
 सूर्य-वंशः ११
 सूर्याविरोधात् हानिः ५४
 सृष्टिः ५
 संतुकाः २६
 सेनजित् २२
 सोम-वंशः १४
 सोमाधिः २२
 सौरः ३६
 सौवीराः २९
 स्कन्दस्वातिः २३
 स्कन्धस्तम्भिः २३
 स्त्री-धर्माः ३७
 स्थानीय-राज-वंशाः २४
 स्मृतिः ३३
 स्वातिः २३
 स्वातिवर्णः २३
 स्वायम्भुवमनु-चरितम् १०
 स्वायम्भुवमनुवंशः ८
 स्वायम्भुवमनुवंशराज-चरितम् ९
 हंसमार्गाः २६, ३०
 हनूमच्चरितम् २८
 हयग्रीवः ४४
 हरिवंशः ४६
 हारहृण ऋः २६
 हालः २३
 हिमवत्पाद-निःसृताः ५१
 हूणाः २९, ३०
 हूहुकाः ३०
 हृदय-वंशः १८
 °होम° ४५

मूलग्रन्थ-नाम-संक्षेपाः

(इह यत्रयत्र संस्करणद्वयमुपयुक्तं तत्रतत्र तत् क, ख इत्येवं विभज्य निर्दिष्टं द्रष्टव्यम्)

अग्नि	= अग्नि-पुराण-	(क) आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलिः, पूना	सन् १९००
		(ख) सरस्वती प्रेस, कलकता	सन् १८८२
कूर्म	= कूर्म-पुराण-	(क) वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६२
		(ख) बिब्लिओथेका इण्डिका, कलकता	सन् १८८६
गरुड	= गरुड-महापुराण-	वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३
देवी-भाग	देवीभागवत-महापुराण-	(क) वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९७५
		(ख) गणपतकृष्णाजी प्रेस, बम्बई	
नारद	= नारदीय-पुराण-	वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६२
पद्म	= पद्म-पुराण-	आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलिः, पूना	सन् १८९४
ब्रह्म	= ब्रह्म-पुराण-	(क) वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३
		(ख) आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलिः, पूना	सन् १८९५
ब्रह्म-वै	= ब्रह्मवैवर्त-पुराण-	(क) वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६६
		(ख) सरस्वती प्रेस, कलकता	सन् १८८८
ब्रह्माण्ड	= ब्रह्माण्ड-महापुराण-	वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३, १९६६
भविष्य	= भविष्य-पुराण-	वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६७
भाग	= श्रीमद्भागवत-पुराण-	(क) हितचिन्तक प्रेस, काशी	
		(ख) वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९५७
मत्स्य	= मत्स्य-पुराण-	(क) वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९८०
		(ख) आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलिः, पूना	सन् १९०७
महा	= महाभारत-	(क) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई	सं. १९०७
		(ख) गोपालनारायण प्रेस, बम्बई	सन् १९१३
मार्क	= मार्कण्डेय-पुराण-	वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९४६
रामा	= रामायण-	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई	सन् १८८८
लिङ्ग	= लिङ्ग-महापुराण-	(क) वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३
		(ख) नूतनवाल्मीकि प्रेस, कलकता	सन् १८८५

वराह	=	वराह-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९८०
शामन	=	वामन-पुराण-	(क) वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६०
			(ख) जगद्धितेच्छु प्रेस,	शक. १८०८
वायु	=	वायु-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९५२
विष्णु	=	विष्णु-पुराण-	गीता प्रेस, गोरखपुर	सं. १९६०
शिव	=	शिव-पुराण-	गुजराती मुद्रणालय, बम्बई	सं. १९५७
शिव-महा	=	शिव-महा-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६३
स्कन्द	=	स्कन्द-पुराण-	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९६५
हरि	=	हरिवंशः	(क) वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई	सं. १९७२
			(ख) मन्मथनाथदत्त-कृत आङ्गलानुवादः, इल्यसिउम प्रेस, कलकता	सन् १८६७



स्थलाङ्क-निर्देश-संकेताः


प्रथमः स्थूलः स्थलाङ्को मूलग्रन्थानाम् अंश-भाग-स्कन्ध-संहिता-पर्व-काण्डादेर्मुख्य-विभागस्य, द्वितीयः स्थलाङ्कोऽध्यायादेरवान्तरविभागस्य, तृतीयः [] इत्याकारे दण्डक-कोष्ठेऽन्तर्निर्दिष्टः स्थलाङ्कः क्वाचित्कस्य सतः अंशादेस्ततोऽप्यवान्तरविभागस्य, चतुर्थश्च () इत्याकारेऽर्धचन्द्रककोष्ठेऽन्तर्निर्दिष्टः स्थलाङ्कः श्लोकस्य संख्यासूचकः द्रष्टव्यः ।



•

पुराण-विषय-समनुक्रमणिका

•



प्रथमं प्रकरणम्

उपोद्धातः

१ मङ्गलाचरण-प्रारम्भप्रश्न-कृत्यसमुद्देशादि

अग्नि १	मत्स्य १, १
कूर्म १, १ (२-६)	मार्क १, (१-१८)
गरुड १, १-३	लिङ्ग १, १
देवी-भाग १, १	वराह १
नारद १, १-२	वामन १
पद्म १, १; ५, १; ३६; ६, १	वायु १, १ (१०-२४; ४१); २
ब्रह्म १	विष्णु १, १ (१-११)
ब्रह्म-वै १, १	शिव १
ब्रह्माण्ड १, १ (१६-३६); २	शिव-महा १ [१], १; २ [१], १
भाग १, १ (५-२३); ४ (१-१३); ७ (१-११); २, ४ (५-१०); ३, १ (१-७)	स्कन्द १ [१], १
भविष्य १, १	हरि १

रामा १, १-४; महा १, १-२

२ पुराण-लक्षणम्

कूर्म १, १, (१२)	वराह २
ब्रह्माण्ड १, १ (३७-८); ३, ४ (५४)	वायु १, १ (१८३); ४ (१०); २, ४ (५५); ४१ (१-१२)
भाग २, १० (१-७); १२, ७	विष्णु ३, ६ (१५; २५)
मत्स्य ५३	शिव-महा ७ [१], १
मार्क १३४ (१३)	
ब्रह्म-वै ४, १३:	

महा १, २३

३ पुराण-विभागः

अग्नि ३८३	ब्रह्म-वै ४, १३३
गरुड ३, १	भविष्य १, १
देवी-भाग १, ३	भाग १२, ७
नारद १, ९२-१०६	स्कन्द ५ [३], १; ७ [१], २

४ पुराण-संख्या

कूर्म १, १ (१३-२२)	भविष्य १, १
देवी-भाग १, ३	मत्स्य ५३
नारद १, १, १०६	मार्क १३४ (८-१२)
पद्म ४, १००; ११०-११	वायु १, ३२ (५८-६४); २, ४२ (१-११)
ब्रह्म-वै ४, १३३	विष्णु ३, ६ (१५-२४)
भाग १२, १३	शिव-महा ७ [१], १

महा १२, १२२

५ पुराण-विषयाः

अग्नि ३८३	मत्स्य २६०
कूर्म १, १ (६८-१००); २, ४६	लिङ्ग १, २
देवी-भाग १, १-२	वराह २१८
नारद १, १०८; ६२-१०६	वामन १
पद्म १, १; ५, १-२; ६, १	वायु १, १ (४२-१७८); ३ (१०-१२); ४ (११-४); २, ४१ (४४-५)
ब्रह्म-वै ४, १३२	विष्णु १, १ (४-११); ३, ६ (२६-७) ६, ८ (१२-२७)
ब्रह्माण्ड १, १ (३६-१७०)-२	हरि ३, १३४
भाग १२, १२	
भविष्य १, १	

रामा १, ३; महा १, १-२; ४२

६ पुराण-माहात्म्यम्

अग्नि २७२, ३८३	मत्स्य २६१
कूर्म २, ४६	मार्क १३४
गरुड १, ३; २४०; २, ४६	लिङ्ग २, ५५
देवी-भाग १, १; १२, १४	वराह ११२; २१७-८
नारद १, १; १२५; २, ८२	वामन ६५
पद्म १, ६१-२; २, १२५; ३, २५; २६; ४, १०९; ११०; ५, ८२; ६, २६	वायु १, १ (४०-४१); २ (३५-४१) २, ४१ (५८-६७)
ब्रह्म १३८	विष्णु ६, ८
ब्रह्म-वै ४, १३३	शिव-महा १, २(८-६); ३, ६ (१५-६); ६, ८ (४३-५१); ७ [२], ४१
ब्रह्माण्ड १, १ (८-१५); ७, ४ (५८-६७)	स्कन्द ७ [४], ४४
भविष्य १, १ (१-११); २, १ (८-६); ३, ८ (२-६); ४, १७१	हरि ३, १३५
भाग १२, १३	

रामा १. १ (६८-१००); ७, १११; महा १, १-२; ६२; १८, ५

७ पुराण-परम्परा

गरुड १, २
ब्रह्माण्ड ३, ४

विष्णु ६, ४

महा १, १२१; १२४

८ सूत-धर्माः

पद्म ४, १००; ५, १
ब्रह्माण्ड १, १ (१५-२३)
भाग १, १ (५-६); २, (१); ४, (१३)

मार्क ६
वायु १, १ (१३-३३);
विष्णु २, ६ (१५-६)

महा १, १

द्वितीयं प्रकरणम्

सृष्टिप्रलयादि

१ सृष्टिः

अग्नि १७
कूर्म १, १-१०; २, ८; ४ ५
गरुड १, ४-६; ३, १-१३
देवी-भाग ६, १-३; ३, ७
नारद १, ४२
पद्म १, २; ७; ३६-७; २, २२; ५, २; ६;
२५६-२५७
ब्रह्म १
ब्रह्म-वै १, ३-४; ६-८; २, १-३; ८-९
(वसुधाख्यानम्)
ब्रह्माण्ड १, ३-५; ४, ४
भाग ३, ५-१०; १३
भविष्य १, २; २ [१]; २
मत्स्य २-८; १६६-१७७

मार्क ४२-४
लिङ्ग १, ३; ३८; ७०
वराह २; ६; १८; २६
वामन ४३
वायु १, १; ३-६; ६-१०; १४; २४; २, ४१
विष्णु १, २-६
शिव ५; ४७
शिव-महा २ [१], १५-६; ५, २९; ६,
१५-७; ७ [१], ६-१७
स्कन्द १ [२], ३७; २ [१], ३५; ५ [३],
१२२; ६, २३६; ७ [१], १६; ७ [२],
१८
हरि १, १

रामा २, ४३; ३, १४

महा १, ४२; २, ४३; ६, ६५-७; १०, १७-८; १२, १६४; १८२-८;
२०७; २१२; २३१; २३८; २४२; २६१-४; २८१; ३११; ३१५-६;
७३ ३८. १६५. १६८. २४५.

२ प्रलयः

अग्नि ३६८	मार्क ४२-४
गरुड १, २२४	वामन २
नारद १, ५	वायु २, ३८
पद्म ३, ३६; ५, ३६	विष्णु ४, ४-५
ब्रह्म ५; १२२; १२५	शिव-महा २ [१], ६
भाग ५, २५; १२, ४	स्कन्द २ [१], ३२; ५ [३], ५-२०
मत्स्य २; १६५	
महा ३, ८८-९०; ५, १०; १२, २३२; २३६; २७४; ३१७; १३, ३६	

३. विसर्गः

अग्नि १६-२०	मत्स्य ६-८
कूर्म १, ११-१३; १८; २, ४५	मार्क ४५-६; १०१
गरुड १, ५	लिङ्ग १, ७०
देवी भाग ६, ३	वराह २; २४; ३०; ३२; ३५
नारद १, ३	वामन ७१-७२
पद्म १, ३; ६-७; २, ५-२५; ५, ३; ७	वायु १, ३; ८-१०; ६१; २, ३-६
ब्रह्म १-३	विष्णु १, ७-१०
ब्रह्माण्ड १, ८-१३; २, १-४	शिव ६; ४७
ब्रह्म-वै १, ८-१०	शिव-महा ५, ३१-३; ७ [१], १६-७
भाग २, १-८; ६, ४-१६	स्कन्द ५ [३], १२२; ७ [१], १६
भविष्य १, २; २ [१], २	हरि १, २-३
रामा १, ४५-६; ३, १४; ४, ५६-६४; ७, १-३४;	
महा० १, ४-१२; ६६; ६, ५०; ७, ५-६; १२, १६४; २०६-७	

तृतीयं प्रकरणम्

कालमानादि

१. कालमानम्

अग्नि १२२	भाग ३, ११
कूर्म १, ५	मार्क ४३
पद्म ५, ३	मत्स्य १४१
ब्रह्म-वै १. ५. २. ७	लिङ्ग १. ४

वायु १, ३१; ५७	स्कन्द ५ [१], ४८; ५ [२], २७२; ६, २७;
विष्णु १, ३	७ [१], १८; ७ [३], १०
शिव-महा ७ [१], ८	हरि १, ८; ३, ४-५
महा १, १; २७३; ३, १८८-६०; ४, ५२; ५, १०; १२, २४ काल-	
महिमा; २८; १३७; १३६; २३१; २३८; २६४; १३, १	

२. कल्पः

नारद १, ५१	वायु १, ७; २१-२
ब्रह्म १२४	शिव-महा ७ [१], ११
ब्रह्माण्ड १, ६	मत्स्य २८६
ब्रह्म-वै १, ५	

३. मन्वन्तराणि

अग्नि १५०	ब्रह्म-वै २, ६३
कूर्म १, ५१	भाग ८, १-२४
गरुड १, ८७-६०	मार्क ५०-६७
देवी-भाग १०, १-१३	मत्स्य ६; ११३; १४४
नारद १, ४०	विष्णु ३, १-२
पद्म ५, ७	वायु १, २१-६१; २, ३८
ब्रह्म ३	शिव-महा ७ [१], ११; ५, ३४
ब्रह्माण्ड १, ६; ३६-८; ३, १	हरि १, ६-८

४. युग-धर्माः

कूर्म १, २६-३०	भाग १२, ३
गरुड १, २२३	मत्स्य १४१-३; १६४
देवी भाग ६, ११	लिङ्ग १, ४०-१
नारद १, ४१	वराह ७०-१
पद्म ४, ११०; ५, ३६; २२६; ६, १८६	वायु १, ८; ३२; ५७-८; २, ३७
ब्रह्म १२२-३	विष्णु ६, १-३
ब्रह्म-वै ४ [२], ६०	स्कन्द १ [२], ४०
ब्रह्माण्ड १, ७; २६-३२	हरि १, ८; ३, २-७
भविष्य १ [१]	

रामा ७, ७४

महा ३, १५१; १६१-४; ५, १०; १२, २३१; २३८; २४४

चतुर्थं प्रकरणम् वंश-वंशानुचरितम्

(क) स्वायंभुवमनुवंशः

१. स्वायंभुवमनोः शतकल्पायाश्चोत्पत्तिः संततिश्च

कूर्म १, ८ (१-३०); १४

गरुड १, ५ (२१-४)

देवी-भाग ८, ३

ब्रह्म १, (५२-६१)

ब्रह्म-वै १, ६ (१-६)

ब्रह्माण्ड १, ९ (१४-५)

भाग ३, १२; १३ (१-१४); २०-३३

मत्स्य ३

मार्क ४७ (६-१६)

लिङ्ग १, ७० (२६७-३००)

वराह २ (२०; ५५-८३); ४ (१-११)

वायु १, १० (७-२३)

विष्णु १, ७ (१७-३८)

शिव-महा ७ [१], १७

हरि १, १ (४२-६); २ (१-५)

२. उत्तानपाद-वंशः

अग्नि १८ (१-२८)

कूर्म १, १४

गरुड १, ६

ब्रह्म १, (६२-११०)

ब्रह्म-वै २, ५०

ब्रह्माण्ड १, ३६ (८४-२२७)

भाग ४, १; ८-३१

मत्स्य ४

वामन ४७

वायु २, १ (७२-६०); २

विष्णु १, ११-६

शिव-महा ५, ३०

हरि १, २ (७-५७)

३. प्रियव्रत-वंशः

अग्नि १०७

कूर्म १, ४०

गरुड १, ५४

देवी-भाग ८, ४

ब्रह्माण्ड १, १४

भाग ५, १-१५

मार्क ५०

लिङ्ग १, ४६-७

वायु १, ३३

विष्णु २, १ (१३-६); ३, १ (२४-५)

स्कन्द १ [२], ३७ (४५-५८)

४. दक्षकन्या-संततिः

अग्नि १८ (२६-४५)

कूर्म १, १३, १५-८

गरुड १, ५ (२४-३८)

देवी-भाग ८, १

ब्रह्म १, (११०-२३८)

ब्रह्म-वै १, ६ (७-१५)

ब्रह्माण्ड १, ९ (४६-९१); २, २	लिङ्ग १, ६३
भाग ३, १२ (४९-५६); १३ (१-१४); १४-९; ४, ३०, १; ६, ५; ६	वायु २, १
मत्स्य ५	विष्णु १, ७; १५ (७५-१३६)
मार्क ४७ (२०-६७), ४८; ४९	शिव-महा २ [२], १४; ५, ३१
	हरि १, ३

५. स्वयंभुवमनुवंशराज-चरितम्

(१) उत्तम-चरितम्

मार्क ६६-६

(२) ऋषभ-चरितम्

स्कन्द ३ [३], १०-४

(३) कापिलेयोपाख्यानम्

भाग ३, २०-३३

महा १२, २७४-६; ३, १०६; २२३; ५, १०९

(४) दक्षप्राचेतस-चरितम्

अग्नि १८

वायु २, २ (४६-५६)

कूर्म १, १४ (५५-६५); १५

भाग ४, ३; ६, ४०

ब्रह्म २

विष्णु १, १५

ब्रह्माण्ड १, १३ (४२-८७)

महा १, ६९; १२, २६०

(५) भ्रुवाऽऽख्यानम्

ब्रह्माण्ड १, ३६ (८९-६५)

विष्णु १, ११; १२

भाग ४, ८-१३

स्कन्द ४ [१], १९-२१; ७ [१], १३

वायु २, १ (७५-८१)

(६) पुरञ्जनोपाख्यानम्

भाग ४, २५-९

(७) पुष्टि-चरितम्

वायु २, १ (८२-४)

(८) पृथु-चरितम्

अग्नि १८

ब्रह्माण्ड १, ३६ (८९-६५)

पद्म ५, ८ (१-३४); २, २६-८; १२४;
१२५

भाग ४, १५-२४

मत्स्य १०

ब्रह्म २

वायु २, १ (९४-११६); २ (१-११)

विष्णु १, १३ (३०-६५)
स्कन्द ७ [१], ३३६

हरि १, ५ (२३-५६); ६

महा ७, ६९; १२, २८; ५८

(६) प्रचेतशु-चरितम्

भाग ४, ३०; ३१
वायु २, २ (२६-३८)

विष्णु १, १४; १५

(१०) प्रियव्रत-चरितम्

वराह २, (५५; ८३); ३; ४

स्कन्द ५ [२], ५८

(११) भद्राशु-चरितम्

स्कन्द ५ [२], ३१

महा ३, २०७

(१२) भरत-चरितम्

नारद १, ४८; ४९
विष्णु २, १३-६

स्कन्द ७ [१], १७२; २३४

(१३) वेन-चरितम्

कूर्म १, १४ (१२-२४)
पद्म २, २९-३८; ३९-१२५
भाग ४, १४
विष्णु १, २३

वामन ४७; ४८
वायु २, १ (६२; ६३)
विष्णु १, १३ (७-२९)
हरि १, ५ (१-२२)

(१४) शतशृङ्ग-चरितम्

स्कन्द १ [२], ३९

(१५) सुयज्ञ-चरितम्

ब्रह्म-वै २, ५०-४

(१६) सुशील-चरितम्

कूर्म १४ (२३-५०)

(१७) स्वायंभुवमनु-चरितम्

भाग ३, २२; २३
देवी-भाग ८, १-३; १०, १

लिङ्ग १, २७; २८

(ख) सूर्य-वंशः

वैवस्वतमनुपुत्र-वंशः

१ इक्ष्वाकु-वंशः

[i] कुशः

अग्नि २७३ (३६-६)	भाग (बृहद्रथः) ६, १२ (१-६)
कूर्म (श्रुतायुः) १, २१ (५५-६०)	मत्स्य (श्रुतायुः) १२ (५१-७)
गरुड (प्रसुश्रुतः) १, १३८ (३९-४६)	लिङ्ग (बृहद्रथः) १, ६६ (१-३; ३८-४३)
पद्म (श्रुतायुः) ५, ८ (१५६-६०)	वायु (बृहद्रथः) २, २६ (११८-२१४)
ब्रह्म (नलः) ६ (८७-६१)	शिव-महा ,, ५, ३६ (१६-३१; ५, २६ (११८-२१४)
ब्रह्माण्ड (बृहद्रथः) २, ६३ (१८५-२१६)	हरि १, १५ (२८-३८)
भविष्य (सुरथः) ३, २ (८-४०)	

[ii] बृहद्रथः

गरुड १, १४१ (५-८)	वायु २, ३७ (२७६-८८)
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१०३-६)	विष्णु ४, २२
भाग ६, १२ (६-१६)	शिव-महा ५, ३६ (३२-४६)
मत्स्य २७१ (१-१७)	

[iii] रामः

अग्नि २७३ (१८-३५)	भविष्य ३, १; २ (१-७)
कूर्म १, २० (१०-७६); २१ (१-५५)	भाग ६, ६-११
गरुड १, १३८ (१६-३६)	मत्स्य १२ (२५-५१)
देवी-भाग ७, ९-२७	लिङ्ग १, ६५ (३१-१७५); ६६ (१-३७)
नारद १, ७-१६	वायु २, २६ (८-११७)
पद्म ५, ८ (१३०-५५)	विष्णु ४, २-४
ब्रह्म ५ (४४-१०९); ६ (१-८७)	शिव-महा ५, ३७; ३८; ३९ (१-१८)
ब्रह्माण्ड २, ४७-५६; २, ६३ (८-१८४)	हरि १, ११ (१२-५७); १२-४; १५ (१-२६)

रामा १, ७०; २, ११०

महा ३, २०५; १३, २; १४, ४

२ इक्ष्वाकुपुत्र-वंशः

[i] कुशाध्वज-वंशः

वायु २, २७ (१६-२७)	विष्णु ४, ५
--------------------	-------------

विष्णु ४, १ (१७)
शिव-महा ५, ३६ (५३-६०)

हरि १, ११ (१०)

१२ प्रांशु-वंशः

ब्रह्म ५, २६

हरि १, १० (३१); ११ (१०)

१३ शर्याति-वंशः

अग्नि २७३ (११-६)
गरुड १, १३८ (१५; १६)
देवी-भाग ७, २ (२४-६५)
पद्म ५, ८ (१२६-९)
ब्रह्म ५ (२७-४१)
ब्रह्माण्ड २, ६१ (१९-२६); ६३ (१-४)
भाग ६, ३

मत्स्य १२ (२१-४)
मार्क १२६-३३
लिङ्ग १, ६६ (४७-९)
वायु २, २४ (२३-३३); २५ (१-४)
विष्णु ४, १ (६२-९६)
शिव-महा ५, ३६ (२३-४७)
हरि १, १० (३१-८); ११ (१-८)

१४ सुद्युम्न-वंशः

अग्नि २७३ (७-६)
देवी-भाग १, १२
पद्म ५, ८ (१२१)
ब्रह्म ५ (१-२३)
भाग ६, १
मत्स्य ११; १२ (१-१६)

मार्क १०८
लिङ्ग १, ६५ (१६-३०)
विष्णु ४, १ (८-१६)
शिव-महा ५, ३६ (१-१६)
हरि १, १० (१-२८)

रामा ७, ८६; ६०

(ग) सोम-वंशः

१ अंग-वंशः

गरुड १, १३६ (७१-८)
ब्रह्म ११, (२७-४६)
ब्रह्माण्ड २, ७४ (२४-१०३)
भाग २३ (४-१४)

मत्स्य ४८ (२२-१०८)
वायु २, ३७ (२४-११५)
विष्णु ४, १८ (११-३०)
हरि १, ३१ (३१-६०)

२ अनु-वंशः (पंचनदीयराज-वंशः)

गरुड १, १३६ (६८-७०)	मत्स्य ४८, (१०-२१)
ब्रह्म ११, (१४-२६)	वायु २, ३७ (१२-२४)
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१२-२३)	विष्णु ४, १८ (१-१०)
भाग २३, (१-३)	हरि १, ३१ (१८-३०)

३ अनेनस्-वंशः

गरुड १, १३६ (१६-८)	वायु ३, ३१ (१-११)
ब्रह्म ६, (२७-६१)	विष्णु ४, ६ (२४-८)
ब्रह्माण्ड २, ६८ (७-११)	हरि १, २६ (१-५)
भाग ६, १८ (११-२; १५-८)	

४ अमावसु-वंशः

गरुड १, १३६ (१-८)	वायु २, २६ (४६-११४)
ब्रह्म ४	विष्णु ४, ६; ७
ब्रह्माण्ड २, ६६ (२४-६०)	हरि १, २७; ३२ (४६-६२)
भाग ६, १५; १६	

महा १, १६१; १३, ४

रामा १, ३२-४; ५१ (१८-२८)

५ क्षत्रवृद्ध-वंशः

गरुड १, १३६ (६-१५)	वायु २, ३० (२-१६)
ब्रह्म ६, (३१-६१)	विष्णु ४, ८
ब्रह्माण्ड २, ६७ (२-७६)	हरि १, २६ (८-८३)
भाग ६, १८ (१-११; १५-८)	

महा १३, ५

६ तुर्वसु-वंशः

अग्नि २७७ (१-३)	मत्स्य ४८, (१-५)
गरुड १, १३६ (६५)	वायु २, ३७ (१-६)
ब्रह्म ११, (१४२-७)	विष्णु ४, १६
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१-६)	हरि १, ३२ (११६-२३)
भाग ६, २३ (१६-८)	

७ द्रुह्यु-वंशः

अग्नि २७७, (४-१७)	मत्स्य ४८, (६-६)
गरुड १, १३६ (६६-७)	वायु २, ३७ (७-१२)
ब्रह्म ११ (१४८-५१)	विष्णु ४, १७
ब्रह्माण्ड २, ७४ (७-११)	हरि १, ३२ (१२४-६)
भाग ६, २३ (१५-६)	

महा १, १३

८ नहुष-वंशः

अग्नि २७४ (२०-३)	मत्स्य २४ (४६-५४)
गरुड , १३६ (१६)	वायु २, ३१
ब्रह्म १०	विष्णु ४, १०
ब्रह्माण्ड २, ६८	हरि १, ३०

रामा ७, ५८; ५६

९ यदु-वंशः

[i] ककुर-वंशः (अंधक वंशः)

अग्नि २७५, (२७-३३)	भाग ६, २४ (१६-६७)
कूर्म २४, (४७-६६)	मत्स्य ४४, (६१-८५)
गरुड १, १३६ (४५-५०)	लिङ्ग १, ६६ (३२-४६)
पद्म ५, १३ (४६-६२)	वायु २, ३४ (११५-३४)
ब्रह्म १३, (४६-६१)	विष्णु ४, १४ (१२-२१)
ब्रह्माण्ड २, ७१ (११६-३५)	हरि १, ३७ (१८-३३)

महा १, १४२; २०२; २३६

[ii] ऋथ-वंशः

अग्नि २७५ (१८-२३)	(१-३२)
कूर्म १, २४ (६-३४)	भाग ६, २४ (१-७)
गरुड १, १३६ (३०-७)	मत्स्य ४४, (३८-४६)
पद्म ५, १३ (२२-३०)	लिङ्ग १, ६८ (४१-५१)
ब्रह्म १३ (१२-२६)	वायु २, ३३ (३६-४८)
ब्रह्माण्ड २, ७० (३७-४६)	विष्णु ५, १३ (२१-३०)
भविष्य ३ [१], २ (५७-७२); ३ [१], ३	हरि १, ३६ (१६-३१)

महा १, ६८

[iii] क्रोष्टु-वंशः

अग्नि २७५, (१२-७)	भाग ६, २३ (३-६)
कूर्म १, २४ (१-५)	मत्स्य ४४ (१४-३८)
गरुड १, १३६ (२६-६)	लिङ्ग १, ६८ (२२-४०)
पद्म ५, १३ (१-२१)	वायु २, ३३ (१४-३८)
ब्रह्म १३ (१-११)	विष्णु ५, १३ (१-२१)
ब्रह्माण्ड २, ७० (१४-३६)	हरि १, ३६ (१-१५)
भविष्य ३ [१], २ (५०-६)	

[iv] देवावृष-वंशः

अग्नि २७५, (२५-७)	भाग ६, २३ (६-११)
कूर्म २४, (३४-६)	मत्स्य ४४, (५१-६०)
गरुड १, १३६ (३८-६)	लिङ्ग १, ६६ (३-६)
पद्म ५, १३ (३५-४४)	वायु २, ३४ (६-१६)
ब्रह्म १३, (३५-४५)	विष्णु ३, १३ (३-६)
ब्रह्माण्ड २, ७० (६-१६)	हरि १, ३७ (६-१६)

महा १२, १४०; १३, २००

[v] निघ्न-वंशः

अग्नि २७५, (४०-४)	भाग ६, २४ (१२; १३)
कूर्म १, २४ (३६; ४०)	मत्स्य ४५, (१-२१)
गरुड १३६, (४०-२)	लिङ्ग १, ६६ (१०-४)
पद्म ५, १३ (७४-६५)	वायु २, ३४ (१८-६८)
ब्रह्म १४, (६-४६)	विष्णु ४, १३ (६-१६२)
ब्रह्माण्ड २, ७० (१८-६६)	हरि १, ३८ (१२-५८)

[vi] भजमान-वंशः

अग्नि २७५ (३४-६; ४७-५१)	भविष्य ३ [१], ३ (११-६७)
कूर्म २४, (३७; ३८; ६७-८६)	भाग ६, २४ (७-११; ४६-६७)
गरुड १, १३६ (५०-६४)	मत्स्य ४४, (४६; ५०); ४६
पद्म ५, १३ (३३-५; ६३-७२; १०६-३७)	लिङ्ग १, ६६ (१-३; ४६-७४)
ब्रह्म १३, (२८-५७); १४ (१-८)	वायु २, ३४ (१-५; १३५-२५७)
ब्रह्माण्ड २, ७१ (१-६); २, ७१ (१३६-२६५); ७२ (२)	विष्णु ४, १३ (१-६); १४ (२२-५३); १५ (१८-५०)
	हरि १, ३४; ३५; ३७ (३-५); ३८ (१-६)

[vii] महाभोज-वंशः

कूर्म २४, (३८)	भाग ६, २४ (११)
गरुड १, १३६ (३६)	वायु २, ३४ (१७)
ब्रह्माण्ड २, ७० (१७-८)	विष्णु ४, १३ (६-७२)

[viii] वृष्णि(पृथि)-वंशः

कूर्म २४, (४२-६)	मत्स्य ४६
गरुड १, १३६ (४३; ४४)	लिङ्ग १, ६६ (१८-३१)
पद्म ५, १३ (६८-१०८)	विष्णु ४, १४ (५-११)
ब्रह्म १२, (१-२३); १४, (५०-६)	हरि १, ३४
ब्रह्माण्ड २, ७० (१०२-१५)	

[ix] शिनि-वंशः

अग्नि २७५, (४५-८)	भाग ६, २४ (१४-८)
कूर्म २४, (४०-५)	मत्स्य ४५, (२२-३४)
गरुड १३६, (४२)	लिङ्ग १, ६६ (१५-७)
पद्म ५, १३ (६६-६)	वायु २, ३४ (६६-११४)
ब्रह्म १, १२ (२४; २५)	विष्णु ४, १४ (१-४)
ब्रह्माण्ड ७०, (१००; १०१)	हरि १, ३४ (२६-४०)

[x] हैहय-वंशः

अग्नि २७५, (१-११)	भाग ६, २३ (२०-६)
कूर्म १, २२ (१३-८७); २३	मत्स्य ४३; ४४
गरुड १, १३६ (२०-६)	लिङ्ग १, ६८ (१-२०)
देवी-भाग ६, १६-२३	वायु २, ३२
पद्म ५, १२ (१११-५२)	विष्णु ४, ११
ब्रह्म ११, (१५४-२११)	हरि १, ३३
ब्रह्माण्ड २, २६-४७; ६६; ७०	

रामा ७, ३१-३

महा २, ४६; १३; ५

१०. रजि-वंशः

अग्नि २७४, (१६-६)	ब्रह्म ६, (२-२६)
गरुड १, १३६ (१५)	ब्रह्माण्ड २, ६७ (८०-१०५)
पद्म ५, १२ (८८-१०२)	भाग ६, १८ (१२-५)

मत्स्य २४, (३५-४८)
विष्णु ४, ६ (१-२३)

हरि १, २८ (३-३७)

महा १, ६६

११. रम्भ-वंशः

ब्रह्म ६ (२७)
भाग ६, १८ (१०-२)

विष्णु ४, ६ (२४)
हरि १, २६ (१)

(घ) पुरु-वंशः

१ अजमीढ-वंशः (काण्वायनाः)

गरुड १, १४० (६)
भाग ६, २० (६; ७)
मत्स्य ४६, (४६; ४७)

वायु २, ३७ (११६-२७; १६५)
विष्णु ४, १६ (३-७; २६-३२)
हरि १, ३२ (६३-७८)

२ गर्ग-वंशः

गरुड १, १४० (७; ८)
भाग ६, २१ (१६; २०)
मत्स्य ४६, (४१)

विष्णु ४, १६ (२३)
हरि १, ३२ (१६-४०)

३ द्विजमीढ-वंशः (उग्रायुध-वंशः)

गरुड १, १४० (१४-६)
भाग ६, २१ (२७-३६); २२ (१-३)
मत्स्य ४६, (७०-६)

वायु २, ३७ (१७६-८८)
विष्णु ४, १६ (४८-५५)

महा १, ६८

४ नर-वंशः

गरुड १, १४० (६)
भाग ६, २१ (१-१८)
मत्स्य ४६, (३६-४०)

वायु २, ३७ (१५६-७)
विष्णु ४, १६ (१६-२२)

५ नील-वंशः (अजमीढ-संततिः)

अग्नि २७८ (१६-२५)
गरुड १, १४० (१७-२४)
ब्रह्म ११ (६३-१०१)

मत्स्य ५०, (१-१४)
वायु २, ३७ (२०६-५५)
विष्णु ४, १६ (५६-७३)

महा १, २०१

६ पुरु-जनमेजय-वंशः

अग्नि १३
गरुड १, १४०
देवी-भाग ६, २४; २५
ब्रह्म ११, (१-१२५)
भविष्य ३, ३ (३२-८३)

भाग ६, २०-२
मत्स्य २४; ४६; ५०, (१-५१)
वायु २, ३७ (२०६-५०)
विष्णु ४, २०
हरि १, ३१; ३२ (१-११६)

रामा ७, ५६; ५८; ५९

महा १, ६६; ८८; ३, ३०-६६; १३, १६६

७ बृहत्क्षत्र-वंशः

भाग ६, २१ (२०; २१)
मत्स्य ४६ (४२; ४३)
वायु २, ३७ (१६१)

विष्णु ४, १६ (२७; २८)
हरि १, २० (१६; १७)

८ बृहदिषु-वंशः (अजमीढ-संततिः)-(नीप-वंशः)

गरुड १, १४० (१०-३)
मत्स्य ४६ (४८-६६)
वायु २, ३७ (१६५-८)

विष्णु ४, १६ (३३-४७)
हरि १, २० (१८-३४)

९ महावीर्य-वंशः

वायु २, ३७ (१५८-६०)

विष्णु ४, १६ (२४-६)

१० सुघनु-श्रुतिश्रवाः

मत्स्य ५० (२४-३४)
विष्णु ४, १६ (७४-८५)

हरि १, ३२ (८६-९९)

महा २, ४-२५

११ सुहोत्र-वंशः

वायु २, ३७ (१६२)

विष्णु ४, १६ (२७)

महा १, ६३, १०१; ३, १६७

(ङ) कलियुगीय-राज-वंशाः

१ पौरव-वंशः

राज-नामानि

अधिसीमकृष्णः	तिग्मात्मा	परीक्षितः	शतानीकः (i)
अभिमन्युः	दण्डपाणिः	बृहद्रथः	शतानीकः (ii)
अश्वमेधदत्तः	दुर्वः	मेधावी	शुचिद्रथः
उदशनः	निचक्षुः	रुचः	सुखीवलः
उष्णः	निरामित्रः	वसुदानः	सुनयः
क्षेमकः	नृचक्षुः	वह्नीनरः	सुनीथः
चित्ररथः	नृपञ्जयः	शृष्णिमान्	सुषेणः
जनमेजयः	परिस्रवः		

गरुड १, १४० (४०; ४१); १४१
(१-४)

भाग ६, २२ (३४-४४)

मत्स्य ५०, (५७; ६५; ६६; ७८-८६)

वायु २, ३७ (२४५-५५; २६७-७५)

विष्णु ४, २१

२ इक्ष्वाकु-वंशः

राज-नामानि

अन्तरिक्षः	धर्मा	भानुरथः	सहदेवः
अमृतजित्	प्रतिव्योमाः	मरुदेवः	सिद्धार्थः
उरुक्षयः	प्रतीताश्वः	रणञ्जयः	सुनक्षत्रः
किन्नराश्वः	प्रसेनजित्	राहुलः	सुपर्णः
कुलकः	बृहक्षयः	वत्सव्यूहः	सुप्रतीकः
कृतञ्जयः	बृहदश्वः	शाक्यः	सुमित्रः
क्षुद्रकः	बृहद्वलः	शुद्धोदनः	सुरथः
दिवाकरः	बृहद्व्राजः	सञ्जयः	

गरुड १, १४१ (५-८)

ब्रह्माण्ड ३, ७४ (१०४-७)

भाग ६, १२ (६-१६)

मत्स्य २७१, (४-१७)

वायु २, ३७ (२७६-८८)

विष्णु ४, २३

३ बार्हद्रथ-वंशः

राज-नामानि

अशुतायुः	दृढसेनः	बृहत्कर्मा	विभुः
क्षेमः	निरामित्रः	महीनेत्रः	विश्वजित्
त्रिनेत्रः	निर्वृत्तिः	रिपुञ्जयः	शुचिः

श्रुतुञ्जयः	सहदेवः	सुनेत्रः (i)	सुव्रतः
श्रुतश्रवाः	सुक्षत्रः	सुनेत्रः (ii)	(सुभ्रमः)
सत्यजित्	सुचलः	(सुमतिः)	सेनजित्
			सोमाधि
गरुड १, १४१ (६-११)			मत्स्य २७१, (१७-३०)
ब्रह्माण्ड ३, ७४ (१०७-२२)			वायु २, ३७ (२८६-३०३)
भाग ६, २२ (४५-६)			विष्णु ४, २३

४ प्रद्योत-वंशः

राज-नामानि

अजकः	पालकः	विशाखयूपः
नन्दिवर्धनः	प्रद्योतः	
ब्रह्माण्ड २, ७४, (१२२-७)		मत्स्य २७२, (१-४)
भविष्य ३ [१], ४ (१-१०)		वायु २, ३७ (३०४-८)
भाग १२, १ (१-४)		विष्णु ४, २४ (१-८)

५ शिशुनाग-वंशः

राज-नामानि

अजातशत्रुः	क्षत्रौजाः	नन्दिवर्धनः	महानन्दी
उदयी	क्षेमधर्मा	विबिसारः	शिशुनागः
काकवर्णः	दर्शकः		
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१२८-३८)		वायु २, ३७ (३०८-१६)	
भाग १२, १ (५-८)		विष्णु ४, २४ (६-१६)	
मत्स्य २७२, (५-१६)		भविष्य ३ [१], ६ (२६-३०)	

६ नन्द-वंशः

राज-नामनी

महापद्मः,	सुकल्पः
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१३६-४२)	वायु २, ३७ (३१७-२३)
भाग १२, १ (८-१२)	विष्णु ४, २४ (२०-२८)
मत्स्य २७२, (१७-२१)	भविष्य ३ [१], ६ (३१-५)

७ मौर्य-वंशः

राज-नामानि

अशोकः	दशरथः	बन्धुपालितः	शतधन्वाः
कुनालः	दशोनः	विन्दुसारः	शालिशूकः
चन्द्रगुप्तः	देवधर्मा	बृहद्रथः	सम्प्रतिः

ब्रह्माण्ड २, ७४ (१४३-८)
भाग १२, १ (१३-६)
मत्स्य २७२, (२२-५)

वायु २, ३७ (२२४-३०)
विष्णु ४, २४ (२६-३२)
भविष्य ३ [१], ६ (४३-५)

८ शुङ्ग-वंशः

राज-नामानि

अग्निमित्रः	देवभूमिः	भागवतः	वसुमित्रः
अन्ध्रकः	पुलिन्दकः	वज्रमित्रः	
घोषः	पुष्यमित्रः	वसुज्येष्ठः	
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१४६-५५)		वायु २, ३७ (३३१-६)	
भाग १२, १ (१७-८)		विष्णु ४, २४ (३३-७)	
मत्स्य २७२, (२५-३१)		भविष्य ३ [४], २३ (२७-४७)	

९ कण्व-वंशः

राज-नामानि

नारायणः	भूमिमित्रः	वसुदेवः	सुशर्मा
ब्रह्माण्ड २, ७४ (१५६-६०)		वायु २, ३७ (३३७-४१)	
भाग १२, १ (१६-१२)		विष्णु ४, २४ (३८-४२)	
मत्स्य २७२ (३२-६)			

१० आन्ध्र-वंशः

राज-नामानि

अरिष्टकर्णः	पुलोमाः	लम्बोदरः	सिमुकः
श्रापीलकः	पुलोमाविः (i)	विजयः	सुन्दरः
कुन्तलः	पुलोमाविः (ii)	शातकर्णी (i)	स्कन्दस्वातिः
कृष्णः	पूर्णोत्सङ्गः	शातकर्णी (ii)	स्कन्धस्तम्भिः
गौतमीपुत्रः	मन्तलकः	शिवधरीः	स्वातिः
चकोरः	मृगेन्द्रः	शिवस्कन्धः	स्वातिवर्णः
चण्डधरीः	मेघस्वातिः	शिवस्वातिः	हालः
पुरिकर्षेणः	यज्ञधरीः	श्रीशातकर्णीः	
ब्रह्माण्ड २ ७४ (१६१-७०)		वायु २, ३७ (३४२-५२)	
भाग १२, १ (२३-८)		विष्णु ४, २४ (४३-५०)	
मत्स्य २७३, (१-१७)		भविष्य ३ [४], २३ (४८-६०)	

११ स्थानीय-राज-वंशाः

ब्रह्माण्ड ३, ७४ (१७१-६)
भाग १२, १ (२७-६)
मत्स्य २७३, (१७-२४)

वायु २, ३७ (२५३-६०)
विष्णु ४, २४ (१३-६)

१२ वैदेशीय-राज-वंशाः

ब्रह्माण्ड ३, ७४ (१७६-८५)
भाग १२, १

वायु २, ३७ (३६१-७)
विष्णु ४, २४ (१७)

१३ क्राइस्टतृतीयशताब्दीय-राज-वंशाः

ब्रह्माण्ड ३, ७४ (१८६-६३)
भाग १२, १

वायु २, ३७ (३६८-७६)
विष्णु ४, २४ (१७; १८)

१४ क्राइस्टचतुर्थशताब्दीय-राज-वंशाः

ब्रह्माण्ड ३, ७४ (१९४-२००)
भाग १२, १

वायु २, ३७ (३७७-८१)
विष्णु ४, २४ (१८)

१५ प्रमर-वंशः (सामवेदिनाम्)

चपहानि-वंशाः (यजुर्वेदिनाम्); क्षत्रिपाः

भविष्य ३ [१], ६ (४६-६)

१६ अग्नि-वंशः (प्रमर-वंशः)

भविष्य ३ [१], ७; ३ [४], १

१७ शालिवाहन-वंशः

भविष्य ३ [३], २; ३

१८ भोजराज-वंशः

भविष्य ३ [३], ४

१९ तोमर-वंशः

भविष्य ३ [४], २

२० शुक्ल-वंशः

भविष्य ३ [४], ३

२१ पनिहर-वंशः

भविष्य ३ [४], ४

२२ गुलाम-वंशः

भविष्य ३ [४], ६

२३ तैमूर-वंशः

भविष्य ३ [४], ६ (४४-५६); २२ (१-३)

२४ मुगल-वंशः

भविष्य ३ [४], २२ (४-६१)

२५ गुरूण्ड-वंशः

भविष्य ३ [४], २२ (६२-८८)

२६ मौन-वंशः

भविष्य ३ [४], २२ (८८-९७)

२७ नाग-वंशः

भविष्य ३ [४], २३ (१-२६)

२८ राहू-वंशः

भविष्य ३ [४], २३ (८१-१३२)

२९ विविध-नृपति-वंशाः

ब्रह्माराड २, ७४ (७१-२०६)

भाग ६, १ (२६-४३)

मत्स्य २७३, (१८-८१)

वायु २, ३७ (३५३-४५८)

विष्णु ४, २४ (५१-६६)

भविष्य ३ [४], २३ (६१-८०)

३० कलियुगीय-राजवंशान्तर्गत-नृपतिचरितम्

उदयसिंह-चरितम्

जयचन्द्र-चरितम्

देवसिंह-चरितम्

पृथिवीराज-चरितम्

भविष्य ३ [३], ४-३२

प्रद्योत-चरितम्

भविष्य ३ [१], ४ (१-१०)

बलखानि-चरितम्, ब्रह्मानन्द-चरितम्

भविष्य ३ [३], ४-३२

भर्तृहरि-चरितम्

भविष्य ३ [२], २३

भविष्य ३ [३], ३
 भविष्य ३ [२], ३४
 भविष्य ३ [३], ४-३२
 भविष्य ३ [१], ७; ३ [२], १-२३

भोजराज-चरितम्
 महानन्दि-चरितम्
 लक्ष्मण-चरितम्
 विक्रम-चरितम्

(च) देव-वंशः

यज्ञ-गन्धर्व-किन्नर-नाग-गुह्यक-असुर-राक्षस-वंशाः देवयोन्युत्पत्तिश्च

अग्नि १६	मार्क २१; ४५; ६८; ७५ (३१)
कूर्म १, ७ (४१-५४); १६-६	लिङ्ग १, ६३
गरुड १, ६	वायु १, ६ (१-३६); ३१; २, ५; ६; ८; २४ (३३-५३)
पद्म २, ६-२१; ५, ६; ४४	विष्णु. १, ५ (३०-४६)
ब्रह्म १, (१३६-२१८); ३	शिव-महा ५, ३२; ३३
ब्रह्माण्ड १, ८ (१-४१); २, ५-८	हरि १, ३
मत्स्य ५-७; २०२	

रामा ३, १४

महा १, ४-१२; १३-५८; २, ५२; १२, २०८

१ अधिपतिः

अग्नि १६, (२२-६)	वायु २, ६
पद्म ५, ७ (६६-८०)	विष्णु १, २२ (१-१५)
ब्रह्म २, (१-१७)	शिव-महा ५, ३३ (१६-३१)
ब्रह्माण्ड २, ८ (१-२५)	हरि १, ४
मत्स्य ८	

२ किरातः

महा ३, ३७-४०

३ चित्रसेनः

महा ३, २४१-५८

४ चैत्ररथः

महा १, १२६-६६

५ यज्ञः

महा २, १५८-६७; ३, ३१२-५

(छ) असुरराज-वंशः

दैत्य-दानव-राक्षस-वंशाः

अग्नि १६, (५-२०); २७६ (१०-२५);

७-१०

कूर्म १६-१६

गरुड १, ६ (४२-५५)

देवी-भाग ४, ३ (२१-५५); ३, ३०; ५,
२; ३

नारद १, १०

पद्म २, १-२५; ११८-२१; ५, ६; ७;
३१; ३७-४३; ६२-७४; ६, २-१६;

६२-१०७; २५८-६१; २६४-७२

ब्रह्म १, १७८

ब्रह्मचै १, १६; २, १४;

ब्रह्माण्ड २, ५; ६; ८; २४; ५६; ६७;
७२; ७३

भाग ६, १८; १६

मत्स्य ६; ७; ११; ४७

मार्क ४५ (१-६)

लिङ्ग १, ६३; ६३-७

वराह २५; ३२; १४४; १६३; २१६;

वामन ७-१०; २३-३१; ५५-८७

वायु २, ६-६; २२-७; ३५-७६

विष्णु १, १५; १६-२२; ३, १७; १८

शिव ६-२४

शिव-महा २ [१], ३५; ५, ३२; ३३

स्कन्द १ [१], ८; २, ८ (८); ३ [१],

४७; ४६; ५ [३], ३५; ८३; ६, २२;

३४-४३; ७ [१], ११

हरि १, ३; ४

रामा ७, १-३४; ४६; ४७; ८६

महा १, १; ५६-१४३; १२, २०७

(ज) वानर-वंशः

१ द्विविदः

भाग १०, ६७

महा ३, २६०

२ नलः

महा ३, २८४

३ मैदः

महा २, ३२; ३, २६०

४ सुग्रीवबालिनोश्चरितम्

पद्म ५, १४

ब्रह्माण्ड २, ७ (२४७-७४)

स्कन्द २ [८], ८; ३ [१], ४२

रामा १, १७; १८; ४, ६५; ७, ३५; ३६
महा १, ६७; २, ५०; ३, २८१

५ सुषेणः

महा ३, २८४

६ हनूमच्चरितम्

पद्म ४, ४४; ५२; ११०
शिव-महा ३, २०

स्कन्द ३ [१], १५; ४५; ४६; ३ [२],
३६-४०; ३ [८], ८; ५ [१], २१;
५ [२], २६; ५ [३], ८३

रामा ४, ६; ७



पञ्चमं प्रकरणम्

जातयः

ब्रह्माण्ड २, १६ (४०-६७)

मत्स्य ११४, (३४-५६)

मार्क ५४, (३३-५६)

वामन १३, (३६-५८)

वायु १, ६४ (१०६-३६)

१ उत्तरदेशीयाः

अङ्गलौकिकाः

अनिभद्राः

अपरान्ताः

अवगानाः

आभीराः

श्रौरसाः

करटकाराः

कम्बोजाः

कालतोयाः

काश्मीराः

किराताः

कुण्डिन्दाः

कुलूताः

कैकेयाः

क्षत्रयोधाः

क्षत्रियाः

क्षुद्राः

गान्धाराः

दर्भखण्डिकाः

चीनाः

चूलिकाः

जागुडाः

तङ्गणाः

तुषाराः

तोमराः

दरदाः

दर्वाः

दशमानकाः

दसेरकाः

पहवाः

पारदाः

प्रस्थलाः

बहुलाः

वाल्हीकाः

भरद्वाजाः

मद्रकाः

यवनाः

रमठाः

लम्पाकाः

वर्वराः

वाटधानाः

वाहीकाः

शतद्रुजाः

शूद्राः

सिन्धवः

सौवीराः

हंसमार्गाः

हारहूणकाः

हूणाः

२ दक्षिणदेशीयाः

अन्ध्राः

अल्लपाः

अश्मकाः

आटव्याः

उद्दिदाः

ऋषिकाः

कलिङ्गाः

कावेराः

कुन्तलाः

कुमाराः

कुल्याः

केरलाः

चैषीकाः

चोलाः

दण्डकाः

नलकाः

पारण्ड्याः

पुलिन्दाः

पौरिकाः

भोगवर्द्धनाः

महाराष्ट्राः

माहिषकाः

मूषिकाः

मौलिकाः

वनवासकाः

विदर्भाः

विन्ध्यमूलीकाः

शबराः

सेतुकाः

३ पर्वतदेशीयाः

कर्णप्रावरणाः	तंगणाः	निराहाराः	दूहुकाः
किराताः	तोमराः	मालवाः	
कुरवः	त्रिगर्ताः	हंसमार्गाः	
खसाः	दावाः	दृणाः	

४ पश्चिमदेशीयाः

अपरान्ताः	कारस्कराः	नासिक्याः	रमिनाः
अर्बुदाः	कोलवनाः	पुलेयाः	रूपसाः
आनर्ताः	वामसाः	भस्कच्छाः	शूरपारकाः
उत्तरनर्मदाः	तालीकटाः	माहेयाः	सारस्वताः
कच्छीयाः	दुर्गाः	मुरलाः	सुराष्ट्राः

५ पूर्वदेशीयाः

अंगाः	पौण्ड्राः	मगधाः	मुद्रकाः
अन्तर्गिरयः	प्राग्ज्योतिषः	मलदाः	वङ्गाः
आङ्गेयाः	बहिर्गिरयः	मल्लाः	वाङ्गेयाः
गोनर्दाः	ब्रह्मोत्तराः	मल्लकाः	विदेहाः
ताम्रलिप्तकाः	भार्गवाङ्गेयाः	मल्लवर्तकाः	श्रीविजयाः

६ मध्यदेशीयाः

अन्धकाः	कुरुपञ्चालाः	बोधाः	शाल्वाः
आवन्ताः	कुल्याः	भद्रकाराः	शूरसेनाः
काशयः	कोशलाः	भुलिङ्गाः	
किराताः	जाङ्गलाः	मगधाः	
कुन्तयः	पटञ्चराः	मत्स्याः	

७ विन्ध्यदेशीयाः

अनूपाः	किष्किन्धाः	तोशलाः	भोजाः
अवन्तयः	कोशलाः	त्रैपुराः	मलदाः
उत्कलाः	तुशिङ्केराः	दशार्णाः	मेलकाः
उत्तमर्णाः	तुम्बवनाः	निषधाः	वातिहोत्राः
कारुषाः	तुम्बानाः	पटवः	वैदिशाः

षष्ठं प्रकरणम्

अध्यात्मप्रकरणम्

१ आत्म-तत्त्वम्

अग्नि २५; ३६६; ३७०	पद्म २, ७
गरुड २, १-४६	शिव-महा ५, २२
देवी-भाग ४, ३२-७; ६, २८	स्कन्द १ [२], ४६
महा ५, ३३; ६, २६; ११, ३-८; १२, १७३; १८२; २५६; ३१८; १४, २२; २३; ४०	

२ कर्म-विपाकः

अग्नि ३७१	ब्रह्म-वै २, ५१; ५२
गरुड १, १०४; १०५; २२५	मार्क १०, ११; १५
देवी-भाग ४, २; ६, १०; ६, ३२-७	वराह १६७-२०७
नारद १, १५; ३१	वामन ७२
पद्म २, १५; ७०; ६४-६; ४, ६७; ६८; ५, २३७; २४३-५	स्कन्द १ [३], ४६-५१

रामा ७, २१; १३, २३
महा ११, ३; ४, १२, २८; ३२; १३, १; ७; ४१-११३; १८, १-६

३ मुक्तिः

कूर्म २, १०	वराह १७, ५२; ५३; २१०-१२
नारद १, ३२; ४५-६; ६०-२; १२५	शिव ७४; ७५
पद्म ५, २४३-५	शिव-महा १, ४; ४, ४१-४३; ५, ५-११; २५-८
ब्रह्म १०५-७	स्कन्द ७ [१], १०७
ब्रह्म-वै २, ३२	महा ११, ७; १२, ७; ६; १६५; १७४ -३७५; १३, २४३

४ मृत्यु-बन्ध-संसाराः

गरुड २, १-४६	पद्म २, १४; १५; ६, २२५-६
	महा ११, ५-७; १२, १६; २६; १७४; २५५-७; २६४; १३, १; १४, १८; ४४;

५ योग-ध्यानम्

अग्नि २३, १६५; २१४-१७; ३७२-६	मत्स्य ५२; २५७
गरुड १, १४; ३६; ६१; ६२; २१७; २२६	मार्क ३६-६
कूर्म २, ११; १८	लिङ्ग १, ८-१०; ८५; ८६-८
देवी-भाग ११, १६-२१	वायु १, १०-५
नारद १, ३३; ४४; ६६	शिव-महा ५, १२; ६ [१], १; २; १०-७;
पद्म १, ५०-२	६ [२], २-७; ७ [२], २७-३६
ब्रह्म १८६-३७	स्कन्द १ [२]. ५४; २, ६; ६, २६१; ७ [३],
भाग ३, २८	१८

महा १२, १७; २१०; २१८; २३६; २६७-६,
३१०-८; १४, २०; २६; ५१;
७६; २४६

६ वेदान्तः (उपनिषद्)

अग्नि ३७७-८२	पद्म २, ६-६; ५, १६०
कूर्म २, १-१०	भाग २, १-१०; ३, २५-३३
गरुड १, २३५-६	विष्णु ६, ६; ७
देवी-भाग ६, ३४; ७, ३६; १२, ८	स्कन्द ५ [३], ११; ६, २६२; ७ [१], २२
नारद १, ३२-६; ५६	

महा ५, ४१-६; ६, २५-४२; ११, २-६;
१२, २१२-६; ३१८; १३, १५

सप्तमं प्रकरणम् स्मृतिः [धर्मशास्त्रम्]

१ अनध्याय-उपाकर्मणी

अग्नि १६२

२ आपद्धर्माः

महा १२, ७८; १३१-७३

३ तीर्थमाहात्म्य-तीर्थयात्राः

अग्नि १०६-१७

कूर्म १, ३०-४४; २, ३५-४४

गरुड १, ८१-६; २, ३८; ३, १५-२६

देवी-भाग ३, २४; २५; ६, १२; ७, ३०

नारद १, ६-११; २, ३६-८२

पद्म १, १३; ६०-२; २, १-१२५; ४,

६६-८३; ५, १४-६; २६-६; ५२; ६०

ब्रह्म २३-५; ३६-६६; १२१

भाग २, १-१०५; १०, ७६

महा १, २१३-३८; ३, ८०-१४८; ६,

३५-६५; १३, २५; २६; १०८

४ दानम् (पात्रापात्र-विवेकः)

अग्नि ०६-१३; २७२

कूर्म २, २६

गरुड १, ५१; ६८; १०७; २, ६; १३; १४;

१८; ४१; ४२

देवी-भाग ६, २६; ३०

नारद ३, १३

पद्म २, ६७; ३, २४; ५, २०; ५४; ५६;

७५; ६, २७; २८; ३३

रामा ७, ७७; ७८

महा ३, १८६; २५६; १२, ३२; १३, ६;

१५-८; २२; ५८-७४; ७६-८६; ६५;

९८; १३७-९; २३५; १४, ९८; १०८

मत्स्य १०२-११

वराह १३७-८०; २१३-६

वामन २२; ३२-७

वायु १, ६०; २, ४३-५०

शिव ५१-७

शिव-महा १, १३-५; २, २-५

स्कन्द १ [१], ३४; ३५; १ [२]; १ [३];

२, [१-३]; ४, २; ५ [३], २२७

भविष्य १, १८७-६; ४, १२७-२०४

मत्स्य ८०-६०; ३०४-६; २७३-८८

लिङ्ग २, २८-४६

वराह १, ६६-११२

शिव-महा ५, १२-२४

स्कन्द १ [२]; २ [१], २०; २२; ५ [३],

५०; ७ [१], २०५; २०८

५ द्रव्य-शुद्धिः

अग्नि १५६

गरुड १, ६७

६ पितृकल्पः (श्राद्धम्)

अग्नि ११७; १६३-५

मत्स्य १०१; २०३

कूर्म २, २०-७

मार्क २७-३०

गरुड १, ६६; १००; २१८-२०; २, १-४६

वराह १३-५; ३४; १८७-६२

प्रेतखण्डः

वायु १, ६; ३०; ५६; २, ११-२१

नारद १, १४; २८

विष्णु ३, १४-८

पद्म २, १-६३; ४, १०१; ११३; ५, ६-११:

शिव-महा ५, १२; ४०-२; ६, १२

४७

स्कन्द ३ [२], ५-७; ६, २१५-२५; ७ [१],

ब्रह्म ११०-२

२०५-८

ब्रह्माण्ड १, २८; २, ६-२०

हरि १, १६-२४

भविष्य १, १८४; १८५

महा १, १३७; ११, २५-६६; १३, ८७-६२;

१३४-६; १८८; २३८

७ पूजा-दीक्षा-संस्काराः

अग्नि २१-१०६; २६४-७०; ३०३-८;

६, ८३; १२७

३१८-२७

भविष्य १, २८; ११३-५; २ [१], १६

गरुड १, ७; ८-१३; १६; १७; २२-३३;

लिङ्ग ७३-६

६१; ६२

शिव ७; ८

देवी-भाग ७, ३८-४०; ८, २४; १२, ७

शिव महा १, ११; १७-२५; २ [१], ११;

नारद १, ६३-६; १२५

६, ३-६

पद्म ३, १०५-८; ११३; ५, ७६; ७८-८२;

स्कन्द १ [१], ८-६; २ [२]; ७ [२], १३

८ प्रायश्चित्तानि

अग्नि १६७-७४

पद्म ३, १८; १६

कूर्म २, ३०-४

भविष्य १, १८६

गरुड १, ५२; १०५

शिव-महा ५, ५; ६; १६

देवी-भाग ११, २४

स्कन्द १ [३], ६

नारद १, १४; २६; ३०

महा १२, ३३-१६२; १३, १३६; १९९

९ भक्ष्याभक्ष्यम्

कूर्म १, १७

ब्रह्म-वै १, २७; २८

पद्म १, ५६

महा १२, ३५; २२१; १३, १३५

१० मनुष्य-लक्षणम्

अग्नि २४३

मत्स्य १४०

भविष्य १, २६

११ यातनास्थान-नरक-कर्षविषाकाः

अग्नि २०३; ३७१

भाग ५, २६

गरुड १, १०४

मार्क ११; १२

देवी-भाग ८, २१-३

वराह १६३-२२२

ब्रह्म १०५-६,

विष्णु २, ६

ब्रह्म-वै २, २६-३१

शिव-महा ५, ८-१०

भविष्य १, १६०-२; ४, ३-५

स्कन्द १ [२], ३६

रामा ७, २१; १३, २३

महा १२, १४; १४, १७; १८, १-६

१२ राजधर्म-राजनीति-दण्डनीति-राजशासनानि

अग्नि २८; २१८-४८; २५३-८

मत्स्य २१३-२६; २४१; २४२

पद्म ३, ३६-८

मार्क २४

भविष्य १, २६

स्कन्द ७ [२], १७

रामा २, ४; १००; ३, ३५-४०; ४, ३;

६, ६-१६; १७-६; ३५; ६३; ६४;

७, ५३

महा २, ५; ४, ४; १३; ६, १; १२, ५५-

१७२; १३, ३३; ३६; १५, ६-८

१३ वर्णाश्रम-धर्माः

अग्नि १५१-४; १६०; १६१; १६६

भाग ७, १२-५

कूर्म १, २; ३; २, १२-६; २४-६

भविष्य १, ३-१५; ४२-४; १८३; १८३;

गरुड १, ४६-५३; ६३-१०७; २१३-७

२, ५; ६

देवी-भाग ११, १-२४

मार्क २५; २६

नारद १, १४; १५; २४-७

वायु १, ८

पद्म १, ५०-६०; ५, १५; ४४-५७; ६,

विष्णु ३, ८-१३

२३२; २३३

शिव-महा ५, २७; ६, ३-६; १२-२३

ब्रह्म ११३-७

स्कन्द ४ [१], ३५-४२; ६, २४२; ७ [१],

ब्रह्म-वै १, १०; ११; २४

२२; १०६

रामा २, ७५; ३, ६; ७, ७४

महा ३, १४६; १५०; १८०; १८३-६०; २००;

८, ४०; ४४; १२, ७-१३; १६-२२;

२६; ३२; ५५; ५६-६२; ६५

१४ व्रत-तिथिमाहात्म्य-उत्सवाः

अग्नि १७४-२०८

गरुड १, ११६-३७

देवी-भाग ३, २६-३०; ७, ३८

नारद १, १७-२३; ११०-२४; २, १-८२

पद्म २, ८७; ३, ३-२६; ४, ८४-९९; ५,

२१-५; ७५-७; ६, २६; ३०-२;

३५-६८; ७०; ७१; ७८; ८५-७;

८९-९१; ९४-७; १०८-२५; १७०;

२१९-२४; २३९-४१;

भविष्य १, १६-४१; ४६-८; ६३-५;

महा १३, ७५; ९३; १०६-९; १५१;

१७२

७०-९; ९४; ९५; ९८; ९९; १९४-

६; २०६; २०८-११; ४, ७-१२

मत्स्य ५६; ५७

लिङ्ग १, ८२-४

वराह १७-६६

वामन १६; ७९; ८०

शिव-महा १, ९; ४, ३७-४३

स्कन्द १ [१], ६-८

हरि २, ८०; ८१

१५ शौचाशौचम्

अग्नि १५७-९; १६८

गरुड १, ५०; १०६; २, ५; ३८; ४३

महा १३, २३; १७०

देवी-भाग ११, २

नारद १, १४

१६ साधारण-धर्माः

अग्नि १४५-८ शैव-शाक्ती; १५५; १६२

गरुड १, ४९-५३; २१३-२२; २२७-३४

देवी-भाग ११, १-२४ शाक्तः

नारद १, ६४-९१ पाशुपतः

पद्म १, ८६-९; २, ८६ वैष्णवः; २, ६६-८१

शैवः; ४, ८४-९९ वैष्णवः; ४, १०२-८

शैवः; ५, २१ सौरः; ५, ४६; ६, २८०

भाग ११, १-३ भागवतः

भविष्य १, ४९-२१५ सौरः; १, १९३; ४,

२०४

मत्स्य ६२

मार्क ३१; ३२

लिङ्ग १, ८९; ९०; २, ८; २७ पाशुपतः

वराह १, ५२; ५३; ११५-३६

वामन ४३

वायु १, १६-२० पाशुपतः

शिव-महा १, १६; ४, ३९-४३; ७ [२],

१०-३६ शैवः

स्कन्द १ [२], ४१-३ शैवः; १ [२], ४७

शाक्तः; २ [२] वैष्णवः; २ [९] २०-३२;

३ [२]; ३ [३] शैवः

रामा ४, १८

महा ३, २०६; २०७; २१६; ८, ६९; ७०;

१२, २७; ३६; १०९; १२३; २४०;

१४१; २५८; २५९; ३०९; १३, १३०;

१३२-४: १४१: १४. १७

१७ स्त्री-धर्माः

अग्नि २४४
 गरुड ३, २२
 देवी-भाग २, २४
 नारद १, २४
 पद्म ५, ४८; ४९; ६, २३४
 ब्रह्म-वै १, २६; २, २३-३४
 भविष्य १, ५; ६; २८

भाग ७, ११
 मत्स्य ६६; २०७-१२
 लिङ्ग १०
 शिव-महा ५, २४
 स्कन्द २ [१], २६; ३ [२]; ४ [१], ४;
 ६, ४२

रामा २, ११७; ११८
 महा ३, २०५; २३३-६; २६४-३००;
 १३, ३७; ५०; ५२; ५६; ७३-८;
 ८१; १२३; १४६; २४६; २५०



अष्टमं प्रकरणम्

आधिदैविकम्

देवतामाहात्म्य-अवतार-चरितानि

अग्नि १-४, १६; २१-४४

कूर्म १, १; २; ६; १२; १४-७; २५; २६; २, ५१

गरुड १, ५; ७; १५-७; १४२; २२७-३४;
३, ४-२६

देवी-भाग १, ४-९; २, १२; ३, १-१३;
२४; ४, १-२४; ५, १-३५; ६,
१-६; २४-३१; ७, २८-३१; ८, ६; ७;
६, ४-३१; ३८-५०; १०, ११-३;
१२, ६

नारद १, ४-५; ११; १५; १६; ३२;
३७-६; ६३; ६४

पद्म १, ५०; २, ७१-५; ८७; ३, १; ३३;
२२; ५, ३; ४; १३; ३७; ४२; ४३;
५७; ५८; ६१-६३; ६९-७१; ७३-७८;
८०-२; ६, ३-१६; २४; ३८-४६; ७२;
७३; ८१; ६२; ६३; ९८-१०७; १२६;
१२८; १६२; १६३; २५५; २५८-७९;
२८१; २८२

ब्रह्म २६-३६; ७०-१०४; ११८-२०

ब्रह्म-वै १, ३-६; १२-३०; २, १-६७; ३,
१-४६

ब्रह्माण्ड १, २५-७

भविष्य १, ४५; ४९-२१५; २, २४-६

भाग २, ७; ३, १३-६; ४, २-७; ७, १-१०;

८, २-४; ८-१०; १०, ६-१२; १५-२३

मत्स्य १; १३-६; ४७; १२८-३६; १६०-३;
१६६-८०; २४३-५०; २५६

मार्क ४; १६; ७८-६०

लिङ्ग १, ११-४४; ६५; ७१; ७२; ६३-६;
६८-१०५; १०७; १०८; २, ४-२७

वराह ३, ६; ६०-८; ११३; ११४

वामन १, ६-१०; २१; २४-३१; ५५-७०;
७३-६४

वायु १, ६; २३-७; ३०; ५४; ५५; २,
३५; ३६

विष्णु १, ४; १६-२२; ३, ५

शिव ५, ६-२४; ३२-४३; ५८-६०;
६२-७०

शिव-महा १, ६-८; २ [१], ६-१०;
१५-२०; २ [२-३]; २ [४], १-१२;
२ [५]; ३, १; २; ६-४२; ४, १-३६;
५, १; ३; ४; ६ [४], १३-२०; ७ [१].
२-७; १८-२३; २५-३१; ७ [२],
२-७

स्कन्द १ [१], ६-३१; ६४-७१; १ [२],
१४-३४; १ [३], ५-८; २, ६; २३

हरि १, ४०-५५; ३, १-७२; १३३

रामा १, ४५; ६, १०५; ७, ८४; ८५

महा १, १८६; ३, ३; ३८-४१; २२०-३३;

५, २२; ७, २०२; २०३; ८, १;

६, ३३; ३६; १०, ७; १७; १८; १२,

४२; ४६; ४७; २०६; ३५२-६५;

२८०-७; १३, १७; १४०; १४६-५०;

१६२; १६७; १४, ११

नक्षत्रं प्रकरणम् विविध-देव-देवांश-अवताराः

१ देवाः

इन्द्रः

देवी-भाग ६, १-६

पद्म ५, ६६; ७१

स्कन्द १ [१], १५-७; १, ६४-७१;

२, २३

रामा ७, ८४; ८५

महा ५, २२; १२, २८०-७; १४, ११

कार्तिकेयः

पद्म ६, ३८

भविष्य १, ४५

भाग २, ७

वामन ५७; ५८

लिङ्ग १, १०४; १०५

शिव ६-१६

शिव-महा २ [४], १-१२

स्कन्द १ [१], २०-३१

महा ३, २२०-३३; १२, ४६; ४७; ६,

३९; १३, १९७

गणपतिः

अग्नि ७१

पद्म ५, ६१-३

ब्रह्म-वै ३, १-४६

भविष्य १, २८

शिव ३२-६

शिव-महा ६ [४], १३-२०

हरि १, १

पौष्करः (कमलनामः)

हरि १, ४१

ब्रह्मा

देवी-भाग ४, १६

भाग ११, ४

रुद्रः

ब्रह्म ३२-६

लिङ्गम्

पद्म ३, १०५-८

लिङ्ग ७३-६

शिव-महा १, ११; १७-२५

विविधदेवाः

अग्नि ३१-१०६

गरुड १, २४-३३

देवी-भाग १२, ६

पद्म ३, ११३

स्कन्द २ [२]; ७ [२], १३

शिवः

अग्नि ३; १६; २१; ४४; ४६; ४७; ७४;
 ३१८-२७
 कूर्म १, १४; १५; २५; २६; २३
 गरुड १, ५; २२; २३; ४०; ४२
 देवी-भाग १, १०; ४, १६
 नारद १, ६३; ६४
 पद्म ५, ४३; ५७; ६, ३-१६; ९२; ९३;
 ९८-१०७
 ब्रह्माण्ड १, २५-७
 भाग ४, २-७; ११, ४
 मत्स्य १२८-३६; १७८-८०
 लिङ्ग १, ११-६; १७-४४; ६५; ७१; ७२;
 ६३; ९६; ९८-१०३; १०७; १०८;
 २, ८-२७

वराह ६८

वामन १-१०; २१; ५५; ५६; ५६-७०;
 ७३; ८१; ८२

वायु १, २३-७; ३०; ५४; ५५

शिव ७; ८; २०-४; ३४-४३; ५४-७;
 ६२-७०

शिव-महा १, ६-८; २ [१], ६-११;

१५-२०; २ [२-३]; २ [५]; ३, १; २;

६-४२; ४, १-३६; ५, १; ३; ४; ७

[१], २-७; १८-२३; २५-३१; ७

[२], २-७

स्कन्द १ [१], ६-८; २०-३१; १ [२],
 १४-३४; १ [३], ५-८

हरि ३, १३३

रामा १, ४५

महा ३, ३८-४१; १३, १७; १४०; १६२;

६, ३३; १०, ७; १७; १८

सूर्यः

अग्नि ७३; ३०१

गरुड १, ७; १६; १७; ३९

पद्म ५, ७५-८

ब्रह्म २६-३१

भविष्य १, ४९-२१५; २, २४-९

विष्णु ३, ५

रामा ६, १०५

महा १, १८९; ३, ३

२ देवांशाः

अर्जुनः

देवी-भाग ४, १६

नारदः

भाग १, ३

मान्धाता

ब्रह्माण्ड २, ७३

वायु २, ३५; ३६

मत्स्य ४७

शङ्कराचार्यः

पद्म ६, २६३

३ देवी .

कूर्म १, १२
देवी-भाग १, ४-९; २, १२; ३, १-१३; २४;
५, २-३५; ६, २४-३१; ७, २८-३१;
३८-४०; ८, ६; ७; २४; ९, ४-३१;
३८-५०; १०, ११-३; १२, ५

पद्म ५, ३; ५; ८०-२
ब्रह्म-वै २, १-६५
मत्स्य ४
मार्क ७८-९०
वामन ४

तुलसी

पद्म ३, २२; ६, २४

त्रिशक्तिः

चराह ६०-७

दुर्गा

पद्म ५, ७८-८२

हरि ४, ८; ६, २३

धात्री

पद्म ५, ५८

सावर्धी

महा १२, २०५

४ विष्णुः

अग्नि १-१६; २१-४४; ४६; ६१; ६३;
२६४-७०; ३०३-८

भाग १, ३; ३०; २, ७; ३, १३-६; ७,
१-१०; ८, २-४; ८-१०; ११, ५

कूर्म १, २; ६; १६; १७; २, ५१

मत्स्य १, १३-६; ४७; १६०-३; १६६-७७;

गरुड १, १; ८-१३; १५; ४३; ६१; ६२;
१४२; ३, १-२६; २२७-३४

२४३-५०; २५६

देवी-भाग ४, १-२४

मार्क ४

नारद १, ४; ५; ११; १५; १६; ३२;
३५-६

लिङ्ग १, ६४-६; २, ४-७

पद्म १, ५०; ५, ३; ४; १३; ३७; ४२;
७०; ७३; ७४; २, ८७; ३, १; ६, ७२;
७३; ८१; ८३; १२६-८; १९२;
१९३; २५७-७९; २८२

चराह ३-६; ११३; ११४

वामन २४-३१; ७४-६४

वायु १, ६; २५; २, ३५; ३६

विष्णु १, ४; १६-२२

शिव ५८-६०

शिव-महा २ [१], ६-१०

ब्रह्म ७०-१०४; ११८-२०; २१३

स्कन्द १ [१], ९-१४; १८; १६; २, ९

ब्रह्म-वै १, ३-६; १२-३०

हरि १, ४०-५५; ३, १; ३७-७२

ब्रह्माण्ड २, ७२; ७३

महा १२, २०९; ३३९; ३४०; ३४८;

३५२-६५; १३, १४६-५०

ऋषभदेवः

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

पद्म ५, ७३

भाग १, ३; २, ७

अग्नि १६; ४६

पद्म ५, ७३; ६, २५७

ब्रह्म २१३

ब्रह्माण्ड २, ७३

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

महा १२, ३४०; ३४८

अग्नि ३; ४६

गरुड १, १४२

पद्म ५, ४; ६, २५७; २५९; २६०

महा १२, ३४०; ३४८

अग्नि १२; १३-५

देवी-भाग ४, १६

पद्म ५, १३; ६, २५७

ब्रह्म १८०; २१३

ब्रह्म-वै ४, १; २

ब्रह्माण्ड २, ७३

महा १२, ४२; ३३९; ३४०

देवी-भाग ४, १६

ब्रह्म १८०; २१३

ब्रह्माण्ड २, ७३

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

अग्नि ३

गरुड १, १४२

पद्म ५, १३

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

कच्छपः

कपिलः

कल्किः

मत्स्य ४७

वायु २, ३५; ३६;

विष्णु ४, २४

हरि १, ४९

कूर्मः

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

मत्स्य २५६

कृष्णः

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

मार्क ४

वायु २, ३५; ३६

विष्णु ४, १५

हरि १, ४९

दत्तात्रेयः

मत्स्य ४७

मार्क १६

वायु २, ३५; ३६

हरि १, ४९

धन्वन्तरिः

भाग १, ३; २, ७;

नर-नारायणौ

मत्स्य ४७

नरसिंहः

अग्नि ४; ४६	भाग १, ३; २, ७
कूर्म १, १६	मत्स्य ४७; १६१-३; २५६
गरुड १, १४२	मार्क ४
देवी-भाग ४, १६	लिङ्ग १, ६५; ६६
पद्म ५, १३; ४३; ७३; ६, २५०	वायु २, ३५; ३६
ब्रह्म १८०; २१३	विष्णु १, १६-२०
ब्रह्माण्ड २, ७२; ७३	हरि १, ४१

महा १२, ३३९; ३४०; ३४८

परशुरामः

अग्नि ४; ४६	ब्रह्माण्ड २, ७३
गरुड १, १४२	भाग १, ३; २, ७; ११, ४
देवी-भाग ४, १६	मत्स्य ४७
पद्म ५, ७३; ६, २१७; २६८	वायु २, ३५; ३६
ब्रह्म १८०; २१३	हरि १, ४१

महा १२, ३३९; ३४०; ३४८

पृथुः (=वैन्यः)

ब्रह्माण्ड २, ७३	वायु २, ३५; ३६
भाग १, ३; २, ७	विष्णु १, १३
मत्स्य ४७	

बलरामः

अग्नि ४६	भाग १, ३; २, ७
पद्म ५, ७३	विष्णु ५, १

महा १२, ३४८

बुधः

अग्नि १६; ४६	भाग १, ३; २, ७
पद्म ५, ७३; ६, २५७	मत्स्य ४७

महा १२, ३४८

भत्स्यः

अग्नि २; ४६	भाग १, ३; २, ७; ११, ४
गरुड १, १४२	मत्स्य २५६
पद्म ५, ४; ७३; ६, २५७; २५८	

मोहिनी

अग्नि ३
गरुड १, १४२

पद्म ५, ४

भाग १, ३

यज्ञः

भाग १, ३; २, ७

गमः

अग्नि ५-११; ४६

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

गरुड १, १४२

मत्स्य ४७; २५६

देवी-भाग ४, १६

वायु २, ३५; ३६

पद्म ५, ७३; ६; २५७; २६९-७१; २८१

विष्णु ४, ४

ब्रह्म १८०; २१३

हरि १, ४१

ब्रह्माण्ड २, ७३

महा १२, ३३९; ३४०; ३४८

वराहः

अग्नि ४; ४६

भाग १, ३; २, ७; ११, ४

कूर्म १, १६

मत्स्य २४७; २५६

गरुड १, १४२

मार्क ४

पद्म ५, ४; १३; ७३; ६, २५७

लिङ्ग १, ६४

ब्रह्म १८०; २१३

विष्णु १, ४

ब्रह्माण्ड २, ७२

हरि १, ४१

महा १२, ३३९; ३४०; ३४८

वामनः

अग्नि ४; ४६

भाग १, ३; २, ७

कूर्म १, १७

मत्स्य ४७; २४४-६; २५६

देवी-भाग ४, १६

मार्क ४

पद्म ५, १३; ७३; ६, २५७; २६७

वायु २, ३५; ३६

ब्रह्म १८०; २१३

विष्णु ३, १

ब्रह्माण्ड २, ७२; ७३

हरि १, ४१

महा १२, ३३९; ३४०; ३४८

व्यासः

कूर्म १, ५१

वायु २, ३५; ३६

ब्रह्माण्ड २, ७३

विष्णु ३, ३

भाग १, ३; २, ७

हरि १, ४१

मत्स्य ४७

हयग्रीवः

भाग २, ७; ११, ४

दशमं प्रकरणम्

अधि-यज्ञः

श्रुतिः (वेदः)

१ ऋषिवंश-प्रवराः

कूर्म १, १६; ५२

मत्स्य १६४-२०१

ब्रह्माण्ड १, ३३-५

महा १२, १४८; २०७; १३, २०६; २१०;
२५५; २७१

२ मन्त्राऽरिष्ट-ग्रहशान्तयः

अग्नि २५; ३१; १२१-४२; २१४; २१६;

पद्म ४, १०३

२६३; २६३-३२४; ३२७; ३४८

भविष्य २ [३], २०; ४, १४१-६

गरुड १, ७; १६-८; ३३; ३५; ३७; ३८;

भाग २, १-१० पुरुषसूक्त-व्याख्या

१०८; ५, ७६

मत्स्य ६६; ६१-३; २१७-३६

देवी-भाग ७, ३५; ६, ३१; ११, २१; १२,

मार्क ४०

१-७

लिङ्ग १, ६१; २, ५३; ५४

नारद १, ३५-७; ५६; ६५-६१

वायु १, १६

महा ६, ३

३ यज्ञ-होम-वेदविधानानि

अग्नि २४; ३२; १६४; १६७; २५६-७१

पद्म ३, १२ नरमेधः

गरुड १, ६३

भविष्य २ [२], ६-८; १०-२१; ४, १२६-

देवी-भाग १२, १-६; १३

३१

रामा ७, ८४-६८ अश्वमेधः

महा २, ३३-५ राजसूयः; १०, १८; १२, २०; ५६;

१६३; २७०; २७८; १३, १६४; २३७

४ वेदविभाग-शाखा-त्रयी-माहात्म्यानि

अग्नि १५०; २७१

भाग १२, ६

कूर्म १, ५२

विष्णु ३, ३-७

नारद १, ५०,

वायु १, ६०; २, ४२

ब्रह्माण्ड १, ३३-५

रामा २, १०६

महा १, ६०; १२, १३; १३, १३

एकादशं षड्करणम् अधि-विज्ञानम्

१ अर्थ-शास्त्रम्

अग्नि २५३-८

महा १२, ८; १६५ अर्थप्रशंसा

२ अलंकार-शास्त्रम्

अग्नि ३३७-४७

३ आदित्यव्यूह-माहात्म्य-पूजाः

ब्रह्म २६-३१

मार्क ६६-१०७

भाग १२, ११

विष्णु २, ७-१२; ३, ५

भविष्य १, ४९-२१५

रामा ६, १०५

महा १, १८९; ३, ३

४ आयुर्वेदः

अग्नि २७६-३०२; ३६६; ३७०

भविष्य १, ३०-४; ८१

गरुड १, १६-२१; १४६-२०४

स्कन्द ७ [१], २०

ब्रह्म १; ११

महा ३, २३०; ११, ४; १२, १६; १४, १२

५ कलाः

भाग १०, ४५

हरि २, ३३

विष्णु ५, २१

महा २, ५४

६ कल्पः

नारद १, ५१

७ काम-शास्त्रम्

महा १२, १६५ (कामप्रशंसा)

८ गान्धर्वम्

गरुड १, ६७

वायु १, २६; २, २४; २५

नारद १, ५०

स्कन्द ७ [१], ३०

९ छन्दः

अग्नि ३२८-३५
गरुड १, २०७-१२

नारद १, ५७

१० ज्योतिषम्

अग्नि १२४; १३६; १२०-४६
कूर्म १, ४१-३
गरुड १, ५७-६
देवी-भाग ८, १५-८
नारद १, ५१; ५४; ५५
ब्रह्म २०-२;
ब्रह्माण्ड १, २१-४
भाग ५, २१-४

मत्स्य १२३-७
भविष्य २ [१], ३; ४
लिङ्ग ५४-६२
वायु १, ५१-३
विष्णु २, ५-१२
शिव ५, १६
स्कन्द १ [२] ३८; ७ [१], ११; २०

महा २, ११; ३, १६४; २३०; ६, १२;
१३, ११०

११ तन्त्रम्

अग्नि १२५; १३७; १३८; २५६-७१
गरुड १, ४१

लिङ्ग २, ५०-२

१२ धनुर्वेदः

अग्नि २४६-५२

रामा १, २७; २८; ३०; ५६; २, ३१;
३, १२
महा १, २२४; ३, १२-३६; ४१-५२; ४,
१३; ५, १६२-७२; ७, १६३-२०२;
१०, १०-८

१३ निरुक्तम्

नारद १, ५३

१४ नीति-शास्त्रम्

अग्नि २३८; २५३-८
गरुड १, १०८-१५

३३-४०

महा १, ८१; १४२; १४३; २, ३-१२;
३, ३२; ५, ३३-४०; ११, २; ८६;
१२, ८१; १३, ३५

१५ पशु-चिकित्सा

अग्नि २८७; २८६-६२

गरुड १, २०४; ३, १४

रामा १, ६; ३, ४३

१६ रत्न-परीक्षा

अग्नि २४६

देवी-भाग ८, ११; १८

गरुड १, ६८-८०

महा १०

१७ लोकाः

अग्नि १२०; ३७१

भविष्य २ [१], ३; ४

कूर्म १, ४१-४

भाग ५, २४

गरुड १, ५७

मत्स्य ६१

देवी-भाग ८, १६-२३

मार्क १२-४

पद्म २, ९५; ९६

वायु १, ५०; २, २९

ब्रह्म २०

विष्णु २, ५; ६

ब्रह्माण्ड १, २०; ३, २

स्कन्द ६, २६; २२६; ७ [१], २२५

रामा ४, २१; ७, २१; १३, २३

महा १३, ४१-११३; १८, १-६

१८ वनस्पति-शास्त्रम्

अग्नि २८२

गरुड ३, १४

१९ वस्तु-सारासारः

गरुड ३, १४

२० वास्तुविद्या-शिल्प-मूर्तयः

अग्नि २१-१०६; २४७; ३२७

पद्म-५, ५६

गरुड १, ४५-८

मत्स्य ५८; ५६; २५७-६६

देवी-भाग १२, ११; १२

वायु २५१-६

नारद १, १३

स्कन्द २ [१], ९-१५; २ [२], १-२

रामा २, ८०; ८३; ६, २१-४

महा १, १४४-५४; २२६; २२७; २,

५-१२; ५०; ३, २८४

२१ विद्या

अग्नि १३४-७; ३०६-१२

शिव महा १, ३४-४१; २ [३], ५०

रामा ५, ३'-७; ८१

महा ३, १०; ३६; ३७; ८०; ६, २६; १२,
१२२

२२ विविधग्रन्थ-सारः

अग्नि ५-११ रामायणम्; १२ हरिवंशः;

स्मृतिः; १, १०८-१५ बृहस्पति-नीतिः;

१३-५ महाभारतम्; १२४ ज्योतिषम्;

१, २०५-६ कात्यायन-व्याकरणम्

३२८-३५ छन्दः

देवी-भाग १२, ७

गरुड १, ५४३ रामायणम्; १, १४४

पद्म ४, ११२ रामायणं पुराकल्पीयम्; ५,

हरिवंशः; १, १४५ महाभारतम्; १,

१७७-८८ गीता

२३७-८ गीता; १, ६३-१०७ याज्ञवल्क्य-

मार्क १-७ महाभारतशङ्कासमाधानम्

महा ३, २७४-६३ रामायणम्; १२, २५२

कठोपनिषद्; १३, १०६ कठोपनिषद्;

१२, ५८ ब्रह्मकृता-दण्डनीतिः

२३ व्याकरणम्

अग्नि ३४६-६७

नारद १, ५२

गरुड १, २०५; २०६

२४ शिक्षा

अग्नि ३३६

२५ सर्प-विद्या

अग्नि २६४-७

भविष्य १, २९-३८; ९१

गरुड १, १९; २०; २७; १४६-२०४

महा १, १५; १६; ३४; ३५; ३८; ५७;

५८; १३, २३

२६ सामुद्रिकम्

गरुड १, ५८-६७

नारद १, ५४; ५५ गणित-जातकम्

रामा २, ६९ स्वप्नः

द्वादशं प्रकरणम्

भू-वृत्तम्

१ कुश-द्वीपः

अग्नि ११६ (११-३)
कूर्म १, ४६ (२०-६)
गरुड १, ५७ (८-११)
देवी-भाग ८, १२ (२८-३७)
ब्रह्म १८, (३५-४५)
ब्रह्माण्ड १, १६ (५२-६४)
भाग ५, २० (१३-७)

महा ६, १२

मत्स्य १२२, (४६-७७)
लिङ्ग १, ५३ (६-१२)
वराह ८७
वायु १, ४९ (४६-५७)
विष्णु २, ४ (३५-४५)
शिव-महा ५, १८ (३६-४४)
स्कन्द १ [२], ३७ (६४-६)

२ क्रौञ्च-द्वीपः

अग्नि ११६, (१४-७)
कूर्म १, ४६ (२७-३३)
गरुड १, ५७ (१२-४)
देवी-भाग ८, १३ (१-१५)
पद्म १, ६ (७-२४)
ब्रह्म १८ (४६-५६)
ब्रह्माण्ड १, १६ (६५-७६)
भाग ५, २० (१८-२३)

महा ६, १२

मत्स्य १२२, (७८-६०)
लिङ्ग १, ५३ (१३-६)
वराह ८८
वामन ११, (३७)
वायु १, ४६ (५८-७२)
विष्णु २, ४ (४६-५८)
शिव-महा ५, १८ (४५-५२)
स्कन्द १ [२], ३७ (६७-७१)

३ गोभेदः

मत्स्य १२३, (१-१२)
वराह ८६ (४)

स्कन्द १ [२], ३७ (७६-६)

४ जम्बू-द्वीपः

अग्नि १०८-१८
कूर्म १, ४५-८
गरुड १, ५४; ५५; २, ४८
देवी-भाग ८, ५-११

पद्म १, ३-७; ६, १२६
ब्रह्म १७
ब्रह्माण्ड १, १५-८
भाग ५, १६-६
मत्स्य ११३-२१

मार्क ५१-७

लिङ्ग १, ४८-५२

वराह ७५-८५

वामन ११ (३३; ३४)

वायु १, ३४-४८

विष्णु २, २; ३

शिव-महा ५, १७ (१-४४)

स्कन्द १ [२], ३७ (२६-४४); ७ [१],

११; १७२

महा २, २६; ६, १-५

५ नद्यः

कूर्म १, ४७ (२८-३९)

ब्रह्माण्ड २, १६ (२४-४०)

मत्स्य ११४, (२०-३२)

मार्क ५४, (१६-३०)

वामन १३, (२०-३३)

वायु १, ४५ (६४-१०८)

ऋक्ष-निःसृताः

करमोदा	त्रिदिवा	मञ्जुला	शुक्तिमती
ऋमुः	दशाण्या	मन्दाकिनी	शुनी
क्रिया	नर्मदा	महानदी	शोणः
चित्रकूटा	पिप्पलश्रोणी	लज्जा	सुरसा
चित्रोत्पला	पिशाचिका	विपाशा	
तमसा	बालुवाहिनी	शकुली	

पारियात्र-निःसृताः

श्रवन्ती	पर्णाशा	विदिशा	वेदस्मृतिः
कुन्ती	पारा	वृत्रघ्नी	शिप्रा
चन्दना	मही	वेत्रवती	सदाभीरा
चर्मण्वती	लूपी ?	वेदवती	सिन्धुः

मलय-निःसृताः

कृतमाला	उत्पलावती	ताम्रपर्णी	पुष्पजह
---------	-----------	------------	---------

महेन्द्र-निःसृताः

इन्दुला	त्रिदिवा	लाङ्गुलिनी
ऋषिकुल्या	त्रिसामा	वंशधरा

विन्ध्यपाद-निःसृताः

श्रन्तःशिला	दुर्गा	महागौरी	शिप्रा
कुमुद्वती	निर्विन्ध्या	वेणवा	
तापी	निषधावती	वैतरणी	
तोया	पयोष्णी	शिनिवात्रः	

शुक्लिमत्पाद-निःसृताः

ऋषिकुल्या	कृगा	मन्दगा
कुमारी	पलाशिनी	मन्दवाहिनी

सह्यपाद-निःसृताः

कावेरी	तुङ्गभद्रा	भीमरथी
कृष्णा	बाह्या	वञ्जुला
गोदावरी	बेरवा	सुप्रभोगा

हिमवत्पाद-निःसृताः

इक्षुः	गोमती	निश्चारा	शताद्रुः
इरावती	चन्द्रभागा	बाहुदा	सरयू
कुहूः	तृतीया	यमुना	सरस्वती
कौशिकी	दृषद्वती	लौहित्यः	सिन्धुः
गङ्गा	देविका	वितस्ता	
गण्डकी	धृतपापा	विपाशा	

६ पर्वत-विभागः

ब्रह्माण्ड १, ७ (११; १२)

वायु १, ६ (३०; ३१); १, ८ (१०; ११)

७ पुष्कर-द्वीपः

अग्नि ११६, (२२-५)
 कूर्म १, ५० (१-१३)
 गरुड १, ५७ (१२-४)
 देवी-भाग ८, १३ (२७-३६)
 पद्म १, ६ (२४-६)
 ब्रह्म १८, (७४-६५)
 ब्रह्माण्ड १, १६ (१०८-३०)
 भाग ५, २० (२६-३३)

मत्स्य १२३, (१३-२७)
 लिङ्ग १, ५३ (१७-६)
 वराह ८६, (४)
 वामन ११, (३६; ४८-५८)
 वायु १, ४६ (१०३-२०)
 विष्णु २, ४ (७३-८६)
 शिव-महा ५, १८ (६६-७३)
 स्कन्द १ [२], ३७ (८०-५)

८ पृथिवी-अटनम्

मार्ग ५८ (११)

९ पृथिवी-आकारः

ब्रह्माण्ड १, १६ (१५७)

वायु १, ४ (८६)

१० पृथिवी-परिमाणम्

ब्रह्माण्ड १, २१ (८-१६)
 मार्क ५१ (१-७)

विष्णु २, ४ (६६; ६७)

११ पृथिवी-विभागाः

नारद १, ५६

मार्क ५१, (१-७)

१२ पृथिवी-संस्थानम्

कूर्म १, ६

देवी-भाग ८, २

पद्म ५, ३

ब्रह्माण्ड १, ५ (२३-८)

भाग २, १३

मार्क ४४, (१-१४)

वराह ११३: ११४

वायु १, ६; ८

विष्णु १, ६ (२६-४०)

स्कन्द २ [१], १; २; ३६; ५ [३], १८६

महा ३, १४४

१३ प्लक्ष-द्वीपः

अग्नि ११६, (१-६)

कूर्म १, ४६ (१-१२)

गरुड १, ५६ (१-७)

देवी-भाग ८, १२ (१-१७)

ब्रह्म १८, (१; २)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१-३२)

भाग ५, २० (१-७)

लिङ्ग १, ५३ (१-४)

वामन ११ (३५; ३६)

वायु १, ४६ (१-२८)

विष्णु २, ४ (१; २)

शिव-महा ५, १८ (३१)

१४ भारत-प्रशस्तिः

नारद १, ३ (४६-८३)

ब्रह्म २५

१५ भू-मण्डलम्

रामा ४, ४०-६७

महा २, २५-३२, ३, ८०-१४८; ५,

१०७-१०; ६, १-१२

१६ लोकालोक-पर्वतः

अग्नि ११६, (२७; २८)

कूर्म १, ५० (१४; १५)

गरुड १, ५७ (२०; २१)

देवी-भाग ८, १४ (१-६)

पद्म ५, ३

ब्रह्म १८, (६६-६)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१५०-४)

भविष्य १, १२५ (७)

भाग ५, २० (३४-८)

लिङ्ग १, ५३ (३१-५)

वायु १, ४६ (१४०; १४१)

विष्णु २, ४ (६४)

शिव-महा ५, १८ (७३-७)

स्कन्द १ [२], ३७ (२५; २६)

१७ वृष्टिः

ब्रह्माण्ड १, २२ (१२-५६)

वायु १, ५१ (१३-५३)

विष्णु २, ६ (६-२२)

१८ शर-द्वीपः

पद्म १. ६ (६)

१९ शाक-द्वीपः

अग्नि ११६, (१८-२१)

कूर्म १, ४६ (३३-७२)

गरुड १, ५७ (१२-४)

देवी-भाग ८, १३ (१६-२६)

पद्म १, ६ (७-२४)

ब्रह्म १८, (५६-७४)

ब्रह्माण्ड १, १६ (८०-१०७)

भाग ५, २० (१८-२३)

मत्स्य १२२, (१-४८)

लिङ्ग १, ५३ (१३-६)

वराह ८६

वामन ११, (३८)

वायु १, ४६ (५८-७२)

विष्णु २, ४ (५६-७२)

शिव-महा ५, १८ (५३-६५)

स्कन्द १ [२], ३७ (५६-६३)

महा ६, ११

२० शाल्मल-द्वीपः

अग्नि ११६ (७-१०)

कूर्म १, ४६ (१३-६)

देवी-भाग ८, १२ (१-१७)

पद्म १, ६ (६)

ब्रह्म १८, (२१-३५)

ब्रह्माण्ड १, १६ (३३-५१)

भाग ५, २० (८-१२)

मत्स्य १२२, (६१-१०४)

लिङ्ग १, ५३

वराह ८६ (१-३)

वायु १, ४६ (४६-५७)

विष्णु २, ४ (२२-३४)

शिव-महा ५, १८ (३२-८)

स्कन्द १ [२], ३७ (७२-५)

महा ६, १२

२१ सप्त द्वीपाः

देवी भाग १२, १०

नारद १, ३ (४१-५)

पद्म १, ६ (२६-४०)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१३७-५२)

भविष्य ३, २४ (७८; ७६)

मत्स्य १२३, (२८-६४)

वामन ११, (४८-५८)

स्कन्द १ [२], ३७ (१४-२१)

२२ समुद्र-वेला (ज्वार भाटा)

अग्नि ११६, (२५; २६)

ब्रह्म १८, (६०-४)

ब्रह्माण्ड १, १६ (१३१-६)

शिव-महा ५, १८ (७३-७)

स्कन्द १ [२], ३७ (२२-४)

२३ सूर्यावरोधात् हानिः

मार्क १६, (३२-७५)

